

बुद्ध का संदेश

हिन्दी समाचार पत्र

लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फ़ैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में एक साथ प्रसारित।

दैनिक बुद्ध का संदेश 9795951917, 9415163471 @budhakasandesh budhakasandeshnews@gmail.com www.budhakasandesh.com

गुरुवार, 29 सितंबर 2022 सिद्धार्थनगर संस्करण वर्ष: 09 अंक: 280 पृष्ठ 8 आमंत्रण मूल्य 2/-रुपया

लखनऊ सुचीबद्ध कोड- SDR-DLY-6849, डी.ए.वी.पी.कोड-133569 सम्पादक: राजेश शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर बड़ा फैसला 10 हजार करोड़ से होगा तीन स्टेशनों का पुनर्विकास

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए अनुमोदन राशि स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी और



रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडरेन के सूर्य मंदिर से प्रेरित है। सीएसएमटी के हेरिटेज भवन को छुआ नहीं जाएगा, लेकिन

उन्होंने कहा कि अहमदाबाद आसपास की इमारतों को फिर से विकसित किया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और सीएसएमटी, मुंबई का लगभग 2 साल से 3.5 साल की अवधि में पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों के पुनर्विकास में मॉड्यूलर तकनीक इस्तेमाल होगी। इन पर भी लगी मुहर: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, देश के नए सीडीएस होंगे लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) अनिल चौहान

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति कर दी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। इसके साथ ही वह सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। अनिल चौहान इसके पहले सीडीएस रहे जिनका उत्तर-पूर्व भारत में आतंकवाद विशेषी अभियानों में व्यापक अनुभव है। उन्होंने पहले भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक (कब्ज) के रूप में कार्य किया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्य किया।



चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में नियुक्त किया, जो भारत सरकार, सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में नियुक्त किया, जो भारत सरकार, सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

लता दीदी को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी

कहा-वह मां सरस्वती की एक ऐसी ही साधिका थीं, जिन्होंने...

नई दिल्ली। स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर का आज 93 वां जन्मदिन है। लता मंगेशकर के नाम पर प्रभु राम की नगरी अयोध्या में एक चौराहे का नामकरण किया गया है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को याद करते हुए पुरानी बातों को साझा किया। लता मंगेशकर के याद में पीएम मोदी भावुक भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लता जी, मां सरस्वती की एक

ऐसी ही साधिका थीं, जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरो से अभिभूत कर दिया। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की विशाल वीणा संगीत की साधना का प्रतीक बनेगी। मोदी ने आगे कहा कि मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि लता दीदी के साथ जुड़ी मेरी कितनी ही यादें हैं, कितनी ही

भावुक और स्नेहिल स्मृतियां हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती, उनकी वाणी की युग-परिचित मिठास हर बार मुझे मंत्र-मुग्ध कर देती थी। दीदी अक्सर मुझसे कहती थी कि मनुष्य उम्र से नहीं, कर्म से बड़ा होता है। मोदी ने पुरानी बातें बताते हुए कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन संपन्न हुआ था, तो मेरे पास लता दीदी का फोन आया था। वो बहुत खुश थीं, आनंद में थी।

तब तक सूनी, जब तक राम ना आए। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्रीराम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष हैं। राम हमारी नैतिकता के, हमारे मूल्यों, हमारी मर्यादा, हमारे कर्तव्य के जीवंत आदर्श हैं। अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक, राम भारत के कण-कण में समाये हुये हैं। मोदी ने कहा कि लता दीदी के नाम पर बना ये चौक, हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी प्रेरणा स्थली की तरह कार्य करेगा। ये बताएगा कि भारत की जड़ों से जुड़े रहकर, आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए, भारत की कला और संस्कृति को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। भारत की हजारों वर्ष पुरानी विरासत पर गर्व करते हुए, भारत की संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, ये भी हमारा दायित्व है।



उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मुझे लता दीदी का गायो वो भजन भी याद आ रहा है, श्रम की अयोध्या

पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर भी कुछ लोग सियासी नफ़-नुक़सान का गुणा-भाग कर रहे: नकवी

नयी दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री ही लोग अब भी उनके साथ मुख्तार अब्बास नकवी ने 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके कुछ अन्य सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने को देशहित में की गई कार्रवाई करार देते हुए बुधवार को कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस कार्रवाई को लेकर भी सियासी नफा-नुक़सान का गुणा-भाग कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, "लोकतंत्र के खिलाफ हिंसक साजिश के तहत गतिविधियां चला रहे कुछ संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। देश की सुरक्षा हमारी ताकत है... यह कार्रवाई देश की सुरक्षा और देशहित में है।" नकवी ने कहा, "अफसोस की बात है कि पहले कुछ राजनीतिक दल ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे थे। ऐसे

(पीएफआई) और उससे संबद्ध अन्य संगठनों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आतंकवाद रोधी कानून 'यूपीए' के तहत 'रिहब इंडिया फाउंडेशन' (आरआईएफ), 'कैपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), 'ऑल इंडिया इमाम कार्सिल' (एआईआईसी), 'नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन' (एनसीएचआरओ), 'नेशनल विमेंस फ्रंट', 'जूनियर फ्रंट', 'एम्पावर इंडिया फाउंडेशन' और 'रिहब फाउंडेशन (केरल) को भी प्रतिबंधित किया गया है।



फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उससे संबद्ध कई अन्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। आतंकवाद रोधी कानून 'यूपीए' के तहत 'रिहब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), 'कैपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), 'ऑल इंडिया इमाम कार्सिल' (एआईआईसी), 'नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), 'नेशनल विमेंस फ्रंट', 'जूनियर फ्रंट', 'एम्पावर इंडिया फाउंडेशन' और 'रिहब फाउंडेशन (केरल) को भी प्रतिबंधित किया गया है।

हम बहुसंख्यकवाद या अल्पसंख्यकवाद के आधार पर धार्मिक उन्माद में अंतर नहीं करते: कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नफरत, कट्टरता और हिंसा का सहारा लेती है। रमेश (पीएफआई) और उसके कुछ सहयोगी संगठनों को सरकार द्वारा प्रतिबंधित किये जाने की पुष्टि में बुधवार को कहा कि वह बहुसंख्यकवाद या अल्पसंख्यकवाद के आधार पर धार्मिक उन्माद में अंतर नहीं करती। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी प्रकार की सांप्रदायिकता की खिलाफ रही है, हम बहुसंख्यकवाद या अल्पसंख्यकवाद के आधार पर धार्मिक उन्माद में अंतर नहीं करते। कांग्रेस की नीति हमेशा से बिना किसी डर के, बिना किसी समझौते के सांप्रदायिकता से लड़ने की रही है। उन्होंने कहा, हम हर उस विवादास्पद और संस्था के खिलाफ हैं जो हमारे समाज का धार्मिक ध्व्वीकरण करने के लिए पूर्वाग्रह,

कट्टरता और हिंसा का सहारा लेती है। रमेश (पीएफआई) और उसके कुछ सहयोगी संगठनों को सरकार द्वारा प्रतिबंधित किये जाने की पुष्टि में बुधवार को कहा कि वह बहुसंख्यकवाद या अल्पसंख्यकवाद के आधार पर धार्मिक उन्माद में अंतर नहीं करते। कांग्रेस की नीति हमेशा से बिना किसी डर के, बिना किसी समझौते के सांप्रदायिकता से लड़ने की रही है। उन्होंने कहा, हम हर उस विवादास्पद और संस्था के खिलाफ हैं जो हमारे समाज का धार्मिक ध्व्वीकरण करने के लिए पूर्वाग्रह,

हिन्दी दैनिक बुद्ध का संदेश समाचार पत्र

में सरकारी विज्ञापन, निविदा, अदालती नोटिस, सम्मान, सूचना, टेंडर प्रकाशन के लिए आज ही सम्पर्क करें।

सभी जनपदों से आवश्यकता है पत्रकारों की सम्पादक:- दैनिक बुद्ध का संदेश

8795951917, 9453824459

www.budhakasandesh.com E-Mail ID: budhakasandeshnews@gmail.com

पीएफआई पर प्रतिबंध का औवैसी ने किया विरोध, पूछा- दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर बैन क्यों नहीं

हैदराबाद। सरकार ने आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे संबंधित संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफआई पर बैन का विरोध किया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि वह पीएफआई के विचारधारा का लगातार विरोध करते रहे हैं। लेकिन इस तरह से बैन ठीक नहीं है। एक के बाद एक किए गए कई ट्वीट में ओवैसी ने कहा कि मैंने हमेशा पीएफआई के दृष्टिकोण का विरोध किया है और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। लेकिन पीएफआई पर इस प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले कुछ व्यक्तियों के कार्यों का मतलब यह नहीं है कि संगठन को ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ओवैसी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि किसी को दोषी ठहराने के लिए केवल किसी संगठन से जुड़ना पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस तरह का कठोर प्रतिबंध



विरोध किया है और यूपीए के तहत सभी कार्यों का हमेशा विरोध करूंगा। यह स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है औवैसी ने यह भी कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने इसे सख्त बनाने के लिए यूपीए में संशोधन किया और जब बीजेपी ने इसे और भी कठोर बनाने के लिए कानून में संशोधन किया, तो कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह मामला कम्पन की समय-सीमा का अनुसरण करेगा, जहां किसी भी कार्यकर्ता या पत्रकार को बेतरतीब ढंग से गिरफ्तार किया जाता है और जमानत पाने में भी 2 साल लगते हैं। उन्होंने सवाल किया कि पीएफआई पर प्रतिबंध कैसे लगा लेकिन खाजा अजमेरी बम मामले में दोषियों से जुड़े संगठन नहीं क्यों नहीं लगा? सरकार ने दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया?

पीएफआई पर प्रतिबंध का औवैसी ने किया विरोध, पूछा- दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर बैन क्यों नहीं

विरोध किया है और यूपीए के तहत सभी कार्यों का हमेशा विरोध करूंगा। यह स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है औवैसी ने यह भी कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने इसे सख्त बनाने के लिए यूपीए में संशोधन किया और जब बीजेपी ने इसे और भी कठोर बनाने के लिए कानून में संशोधन किया, तो कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह मामला कम्पन की समय-सीमा का अनुसरण करेगा, जहां किसी भी कार्यकर्ता या पत्रकार को बेतरतीब ढंग से गिरफ्तार किया जाता है और जमानत पाने में भी 2 साल लगते हैं। उन्होंने सवाल किया कि पीएफआई पर प्रतिबंध कैसे लगा लेकिन खाजा अजमेरी बम मामले में दोषियों से जुड़े संगठन नहीं क्यों नहीं लगा? सरकार ने दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया?

PFI के प्रतिबंध पर आया लालू यादव का बयान, बोले- सबसे पहले RSS को बैन करिए, ये उससे भी बदतर

पटना। केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और उससे जुड़े कुछ और संगठनों पर आज प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद से अब राजनीतिक बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता अब लगातार इस बात की मांग करने लगे हैं कि दक्षिणपंथी संगठनों पर भी सरकार प्रतिबंध लगाए। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी नाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का भी बयान सामने आ गया है। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग कर दी है। अपने बयान में लालू यादव ने कहा कि पीएफआई पर जांच हो रही है। पीएफआई की तरह जितने भी संगठन हैं सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सभी पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि छप. के द्वारा जांच की जा रही थी, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में भी जैसे सूचनाएं मिलेंगी उसी के अनुसार कार्रवाई की गई। आरएसएस पर बैन की मांग पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राजस्थान में जो कहना चाहिए, वो कह नहीं पा रहे... ऐसी किसी भी बात के लिए जो राष्ट्रविरोधी ताकतों को मदद करने वाली हो वो खुलकर सामने आ जाते हैं। मैं यही कहूंगा कि राष्ट्रनिर्माण में अपना योगदान करें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के बाहर बैठे दुश्मनों से देश के अंदर बैठे दुश्मन ज्यादा खतरनाक हैं। चूंकि मोदी ने चूंकि पर प्रतिबंध लगाकर देश को सुरक्षित रखने का काम किया है। चूंकि द्वारा जो देश का शुद्धीकरण अभियान चलाया जा रहा है, हर भारतीयों को उनके साथ है।



तालिबान की चेतावनी! अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें पाकिस्तान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हद में रहें नई दिल्ली। हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने अपने पड़ोसी देश तालिबान पर टिप्पणी की थी। अब तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर निशाना साझते हुए जवाब दिया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों की मौजूदगी का दावा किया था। इस पर अफगानिस्तान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें पाकिस्तान। अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों की उपस्थिति का दावा करने वाले पाकिस्तानी प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ की टिप्पणी का जिक्र करते हुए, स्टेनकजई ने कहा कि इस्लामिक अमीरात दावों से इनकार करता है और निंदा करता है और किसी को भी अफगानिस्तान के प्रति इस तरह के बयान देने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान की कड़ी निंदा की। हम किसी को भी इस्लामिक अमीरात के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं देते। अगर पाकिस्तान को आर्थिक समस्या है और उसे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंडिंग की काली सूची में डाल दिया जाता है, तो कोई भी उन्हें पैसे देने के लिए कॉल नहीं करता है।

दामाद ही निकला सास का कातिल, भेजा गया जेल

पत्नी की तहरीर पर कुमारगंज पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

मिल्कीपुर—अयोध्या | सगा दामाद ही निकला सास का कातिल पत्नी सुनीता शुक्ला की तहरीर पर कुमारगंज पुलिस ने आला कत्ल सहित घटना में वांछित चल रहे विंध्या प्रसाद शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताते चलें कि मृतका राजपति उम्र करीब 70 वर्ष निवासी पूरे झम्नन दुबे मौजा भिठारी थाना इनायतनगर करीब 1 वर्ष से अपने दामाद विंध्या प्रसाद शुक्ला व अपनी पुत्री सुनीता शुक्ला निवासी ग्राम सभा बहबरमऊ थाना कुमारगंज के साथ रहती थी। ग्रामीणों के अनुसार वीते शनिवार की शाम मृतका के दामाद विंध्या प्रसाद व उसकी पत्नी सुनीता शुक्ला

में लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसी बीच पति से नाराज होकर सुनीता अपने मायके भिठारी पूरे झम्नन दुबे थाना इनायतनगर चली गई थी |सुनीता के अनुसार शनिवार की रात करीब 11:00 बजे उसके पति विंध्या प्रसाद शुक्ला ने मां की तबीयत खराब होने की बात कहते हुए फोन से सूचना दी थी।

सूचना मिलने पर सुनीता ने अधिक रात होने की बात कहते हुए मां को किसी प्राइवेट डॉक्टर से दवा लेने की बात कहते हुए सुबह घर पहुंचने की बात कही थी। इसी बीच सुबह सुनीता को उसके पति विंध्या प्रसाद ने मां की मौत हो जाने की बात फोन पर अपनी पत्नी

सुनीता से बताया। मां की सदित्ा अवस्था में मौत की सूचना मिलने पर सुनीता ने 112 डायल पुलिस को सूचना देते हुए कुमारगंज पुलिस को घटना से अवगत कराया था |सूचना मिलते ही 112 डायल पुलिस व इलाकाई कुमारगंज पुलिस बहबरमऊ गांव पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए लाश को कब्जे में लेकर लाश का पंचनामा कराते हुए पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया था। घटना के दूसरे दिन सुनीता शुक्ला ने अपने पति बिंदा प्रसाद शुक्ला पर शंका जताते हुए मां की हत्या किए जाने की नामजद तहरीर कुमारगंज पुलिस को दी। तहरीर मिलते ही कुमारगंज

पुलिस ने सुनीता के पति विंध्या प्रसाद को बीसापुर रोड से खपड़े मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया |पुलिस की कड़ी पूछताछ में बिंदा प्रसाद ने अपनी सगी सास मृतका राजपति की हत्या किए जाने का राज उगल दिया। पुलिस ने बिंदा प्रसाद के निशान देही पर आला कत्ल में प्रयोग डंडा भी बरामद कर उसे जेल भेज दिया। थाना प्रभारी कुमारगंज विवेक कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए बिंदा प्रसाद शुक्ल पुत्र स्वर्गीय उमा दत्त शुक्ला निवासी ग्राम बहबरमऊ थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या का निवासी है जिसे अपराध संख्या, 221६22 धारा 304 के तहत जेल भेज दिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का प्रमुख केन्द्र होगी अयोध्या : मंडलायुक्त –विश्व पर्यटन दिवस पर हेरिटेज वॉक का आयोजन

अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग के एम0बी0ए0 दूरिज्म मैनेजमेंट एवं उ0प्र0 पर्यटन, अयोध्या के संयुक्त संयोजन में विश्व पर्यटन दिवस पर हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। हेरिटेज वॉक हनुमान गढी अयो्ध्या होते हुए कनक भवन, मदगजेन्द्र, झुनकी घाट के रास्ते कोरियन पार्क में जाकर समाप्त हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अयोध्या मंडलायुक्त नवदीप रिनवा रहे। उन्होंने कहा कि अयोध्या के छोटे बड़े मन्दिरों और घाटों को पर्यटन का हब बनाने का कार्य उ0प्र0 सरकार और भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में अयोध्या अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का प्रमुख

केन्द्र होगा। उ0प्र0 पर्यटन व अवध विश्वविद्यालय के एम0बी0ए0 विभाग द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर हेरिटेज वॉक का आयोजन कराया है, सरहनीय कार्य है। राजेन्द्र प्रसाद, उपनिदेशक, उ0प्र0 पर्यटन विभाग, अयोध्या ने कहा कि हेरिटेज वॉक कराने का उद्देश्य लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का थीम पुर्नविचार पर्यटन है जो कि संदेश देता है कि हमें अपने पर्यटन उद्योग के बारे में पुन: सोचना है कि किस प्रकार से आर्थिक व सामाजिक अवसाद से निकलने में पर्यटन अपनी क्या भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि कोविड ने इस उद्योग को बहुत ही नुकसान पहुँचाया है और

उद्योग पुन: खडा हो रहा है। हमें अब नये नये पर्यटन स्थलों को खोजना होगा और यह काम आप सभी छात्रों का है। पर्यटन उद्योग में अब रोजगार के अनेकों अवसर आ रहे हैं। इसी दौरान अयोध्या शोध संस्थान के कलाकारों ने शिव पावर्ली का रोल अदा किया। वहीं अभिषेक सावंत द्वारा छात्रों को स्थलों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के प्रारम्भ में व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग के प्रो. शैलेन्द्र कुमार वर्मा ने मण्डलायुक्त नवदीप रिनवा, उपनिदेशक उ0प्र0 पर्यटन, अयोध्या मण्डल राजेन्द्र प्रसाद और समाजसेवी शक्ति सिंह का स्वागत अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ में पर्यटन अपनी क्या भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि कोविड ने इस उद्योग को बहुत ही नुकसान पहुँचाया है और कहा कि आगामी वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की असीम सम्भावनाएं हैं। इसके लिए छात्रों को अभी से तैयारी करनी होगी। उन्होंने बताया कि हेरिटेज वॉक से छात्रों को अपने विरासत को जानने और समझने मौका मिलता है। आगे भी संयुक्त संयोजन में ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करता रहेगा। कार्यक्रम में समाजसेवी शक्ति सिंह, अयोध्या व शोध संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी राम तीरथ, उ0प्र0 पर्यटन विभाग के अमरेश यादव, डॉ0 अंशुमान पाठक, डॉ0 रामजीत सिंह यादव, डॉ0 राकेश कुमार, डॉ0 निमिष मिश्रा, डॉ0 महेन्द्र पाल सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र—छात्राओं ने हिस्सा लिया।

बॉलीवुड अभिनेत्री मालोबिका एमजे ने किया रामलला का दर्शन

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री मालोबिका एमजे ने रामलला के दरबार में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शारदीय नवरात्र के अवसर पर मेरा गाना जी लेने दो रिलीज हुआ है उसी को लेकर अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आई थी और भगवान से प्रार्थना किया और मुझे विश्वास है कि भगवान राम लला मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से ‘जी लेने दो’ गाना बहुत सुपरहिट होगा अब तक मेरे सभी गानों को लोगों ने सुपरहिट बनाया था और आगे भी तरक्की हमें मिलेगी।

अशोक सिंघल को 96वीं जयंती पर अधिवक्ताओं ने किया नमन

अयोध्या। राम मंदिर आंदोलन के नायक बाबरी विध्वंस के आरोपी अशोक सिंघल की 96वीं जयंती पर कचहरी परिसर में अधि वक्ताओं द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि करते हुए उन्हें नमन किया गया इस अवसर पर भाजपा नेता अधिवक्ता राजीव शुक्ला ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के शलाका पुरुष हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी का योगदान राम मंदिर आंदोलन में स्मरणीय है अयोध्या जी में आज बनता हुआ राम मंदिर इस बात का प्रमाण है ऐसे वीर महापुरुष को कोटि—कोटि नमन हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडेय ने कहा कि “हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, अशोक जी ने भी इतिहास लिखा। श्री पांडे ने लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे का नाम अशोक सिंघल जी के नाम पर किए जाने पर हर्ष प्रकट करते हुए कहा कि अयोध्या में स्थित प्रमुख चौराहे चौक और प्रमुख गलियों के नाम भी वीर बलिदानी कारसेवकों के नाम पर रखे जाएं। भाजपा नेता दिनेश जयसवाल ने कहा कि श्री राम जन्म भूमि मुक्ति आंदोलन के महानायक श्रद्धेय सिंघल जी श्री राम जन्मभूमि मुक्ति वाह हिंदुत्व के लिए अपने जीवन के अंतिम सांस तक संघर्षरत रहने वाले वीर श्री सिंघल जी जी के स्वर्णिम योगदान को कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकेगा पुष्पांजलि अर्पित करने वाले प्रमुख लोगों में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अधिवक्ता विश्वनाथ तिवारी अधिवक्ता विरेंद्र शर्मा, अधिवक्ता आशुतोष पांडेय, अधिवक्ता आदित्य पांडे अधिवक्ता संजय रस्तोगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे

सर्व धर्म प्रार्थना के साथ संपन्न हुआ स्काउट मास्टर शिविर

अयोध्या। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ स्काउट गाइड अध् यपकों का सात दिवसीय बेसिक कोर्स स्काउट भवन एवं प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुआ। विगत 20 सितंबर से चल रहे इस शिविर में जनपद के माध्यमिक, बेसिक विद्यालयों के 33 अध्यापकों एवं 24 अध्यापिकाओं ने स्काउटिंग गाइडिंग विषयों का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर प्रतिभागियों को अपने विद्यालय में बच्चों को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित करने का मौका मिल सकेगा । बाराबंकी जनपद के राम आसरे व रायबरेली जनपद की साधना शर्मा ने लीडर ऑफ द कोर्स दायित्व का बखूबी निर्वहन किया । शिविर समापन से पूर्व सभी प्रतिभागियों की स्काउटिंग विषयों से संबंधित जिज्ञासा का निवारण किया गया । अंत में ६ वजारोहण कर शिविर समापन हुआ। शिविर के सफल संचालन में प्रादेशिक संगठन आयुक्त राकेश गुप्ता, जिला प्रशिक्षण आयुक्त अनूप मल्होत्रा,वंदना पांडेय, जिला संगठन आयुक्त रश्मि श्रीवास्तव एवं बालजती, गीता गुप्ता,वंदना यादव, जितेंद्र कुमार एवं मुकेश कुमार साहू ने अपना सक्रिय योगदान प्रदान किया।

बंजर भूमि पर अवैध कब्जा करने में तीन के विरुद्ध केस दर्ज

मिल्कीपुर—अयोध्या। खंडासा थाना क्षेत्र के राय पट्टी गांव में बंजर की भूमि पर अवैध कब्जा करना गांव के 3 लोगों को महंगा पड़ गया है। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अवैध कब्जा हटाने हेतु बार–बार मना किए जाने के बावजूद भी बंजर भूमि पर अपना स्वामित्व जताए रहने को लेकर क्षेत्रीय लेखपाल ने खंडासा थाने में तीन अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा कायम करा दिया है। राय पट्टी राजस्व गांव में तैनात लेखपाल लाल चंद यादव ने खंडासा पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि राजस्व अभिलेखों में बंजर खाते में दर्ज गाटा संख्या 1539 रकबा 5.529 हेक्टेयर के आंशिक भाग में दर्ज गाटा संख्या 1539 रकबा 5.529 हेक्टेयर के आंशिक भाग में दर्ज के ही कल्पनथ पत्र राम चरण एवं तहलरुल निशा पुत्री वाजिद अली और शालिकराम पुत्र शामते द्वारा अवैध कब्जा करते हुए पक्का निर्माण कर लिया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने तीनों आरोपी अवैध कब्जे दारों के खिलाफ प्रीवेंशन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु कइ दी है।

अयोध्या में अयोध्या मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा द्वारा महिला अस्पताल व राजकीय टीवी क्लीनिक का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

मण्डलायुक्त ने कहा कि निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं, जैसी हम अपेक्षा कर रहे थे उतनी अच्छी नहीं मिली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह भी समय—समय पर आकस्मिक निरीक्षण करे तथा सभी डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मचारी समय पर अपनी ज़रूटी पर उपलब्ध रहें, ज़रूटी के समय कोई भी अपने व्यक्तिगत कार्य से बाहर ना जाए एवं सभी डाक्टर

दि लायर्स एसोसिएशन का चुनाव 18 अक्टूबर को

कानपुर। डीएवी कॉलेज में 18 अक्टूबर को दि लायर्स एसोसिएशन का सुबह नौ से शाम पांच बजे तक मतदान होगा |एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन युद्धवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक के दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई |फ़ॉर्म 30 सितंबर को एसोसिएशन भवन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। एक से तीन अक्टूबर तक नामांकन होगा। छह को नामांकन पत्रों की जांच और सात को नाम वापसी होगी। मतगणना 19 अक्टूबर को होगी। **सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक महिला समेत 11 बेरोजगारों से लाखों की ठगी**

कानपुर। कल्याणपुर में तीन ठगों ने विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक महिला समेत 11 बेरोजगारों से लाखों की ठगी कर ली। ठगी की रकम आरटीजीएस और चेक के जरिए भी ली गई। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।
आवास विकास एक निवासी पूजा सिंह की कुछ महीनों पहले एक शादी समारोह में हरदोई निवासी अंकित कुमार त्रिपाठी और उसके साथी अमित सिंह से मुलाकात हुई। इस दौरान अंकित और अमित ने कई सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने की बात कही। जिस पर उन्होंने इलाके में रहने वाले 11 लोगों से अंकित की मुलाकात कराई। आरोप है कि विभिन्न विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर अंकित ने अपने साथियों अमित और आलोक सिंह के साथ मिलकर 38 लाख रुपए की रकम हड़प ली। साथ ही सभी लोगों को फर्जी तरीके से ट्रेनिंग भी करा दी गई। नियुक्ति पत्र न आने पर पीड़ितों को ठगी की जानकारी हुई। कल्याणपुर थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

पनचक्की से फूलबाग तक रेंगे वाहन

कानपुर। नरोना से फूलबाग तक मेट्रो के चल रहे कार्य और नरोना से फूलबाग वाया पनचक्की सड़क के गड्ढों से दिनभर यातायात अव्यवस्थित रहा। इसके चलते दोपहर 12 से शाम चार बजे तक वाहन रेंगते नजर आए। पनचक्की चौराहे से फूलबाग की दूरी दो सौ मीटर है। इतनी दूरी तय करने में वाहन सवारों को दस से 12 मिनट लगे। इसका असर मेघदूत तिराहे पर दिखा।

इसी तरह टाटमिल और झकरकटी पुल के बीच भी यातायात अव्यवस्थित रहा। झकरकटी टाटमिल की ओर आने वाले वाहन हिचकोले खाते हुए आ रहे थे। क्योंकि चौराहे के मुहाने पर मल्टीस्टोरी साइड में गड्ढा है और उसमें जलभराव है। इसकी वजह से वाहन रेंगने को मजबूर रहे। वहीं अफीम कोठी चौराहे पर खुदाई की वजह से एक लेन बंद है। थोक बाजार से आने वाले वाहनों की वजह से भी जूही खलवा पुल पर जाम लगा। इससे परमपुरवा तिराहे तक वाहनों की लाइन लगी रही।

जो नाश्ता नहीं मिला उसके लिए कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे हैं तथा बिना ड्रेस के आ रहे है उन पर कार्यवाही करें जिससे अन्य कर्मचारियों में भी सुशासन का एक संदेश जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला अस्पताल में देखा कि कुछ जगह पर लाइट खराब थी तथा प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी एवं साफ सफाई में भी कमी मिली तो उन्होंने निर्देशित किया कि साफ सफाई सुनिश्चित कर प्रकाश की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार समय—समय पर आकस्मिक रूप से निरीक्षण होता रहेगा तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अजय राजा से कहा कि आप भी स्वयं सुबह 8 बजे आकस्मिक निरीक्षण करें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि राजकीय टीवी क्लीनिक के जो प्रभारी हैं उनके पास अतिरिक्त चार्ज है वह

एडिशनल सीएमओ भी हैं। मण्डलायुक्त ने कहा कि आपका बाकी कार्य 10 बजे से शुरु होता है तो आप राजकीय टीवी क्लीनिक सुबह 8 से 10 बजे तक समय दे सकते हैं। वही कहा कि मेरी अपेक्षा रहेगी कि सभी अधिकारियों से आने वाले समय में हम ऐसे ही आकस्मिक निरीक्षण करें आज जो स्थिति मिली है इससे बेहतर व्यवस्था मिलेगी और इस पर निरंतर सुाए जाएंगे और अच्छी से अच्छी सुविधा हम अयोध्या के लोग हैं उन्हें उपलब्ध करा पाएंगे। उपस्थित पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर कि महिला अस्पताल से पेशेंट को प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा है इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा कोई करता है तो गलत है और भविष्य में ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिला महिला अस्पताल

प्रेमी के साथ मिलकर पति के घर पर कब्जा करने का आरोप

अयोध्या। प्रेमी के साथ मिलकर पति के घर पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मोहल्ले वालों ने अयोध्या एसएसपी को ज्ञापन भेजा है। वही ज्ञापन में महिला व उसके प्रेमी पर कारवाई करने की मांग की गयी है। इससे पहले युवक व उसकी मां द्वारा शिकायती पत्र एसएसपी को भेजा जा चुका है। बता दे कि कोतवाली अयोध् या इलाके में स्थित रायगंज गोडियाना के रहने वाले पीड़ित

पति मो इसराइल ने बताया कि उसकी शादी 15 वर्ष पूर्व पटरंगा की रहने वाली नुसरत जहां के साथ हुई थी।

जिससे उसको एक बेटा व एक बेटी है। खर्च बढ़ने पर वह कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया। जिसके बाद वह अपनी पत्नी को लगातार खर्च के लिए रुपये भेजता रहा। उसने नुसरत ने उसके साथ रहने से इंकार कर दिया। इसके साथ के दौरान मोहल्ले वालों ने पत्नी के सुनील सोनकर के साथ अवैध

दफन हो गया शव के ममी बनने का राज,नहीं कराया गया पोस्टमार्टम

परिवार के सदस्यों का मानसिक परीक्षण कराने के लिए सीएमओ को लेटर भेजा

कानपुर। शहर के रावतपुर के कृष्णापुरी में शव को डेढ़ साल तक घर में सुरक्षित रखने का राज पुलिस की लापरवाही से दफन हो गया। शव को बिना पोस्टमॉर्टम कराए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। फोरेंसिक जांच भी नहीं कराई गई। इसके चलते अब कभी भी पता नहीं चल सकेगा कि आखिर शव को डेढ़ साल तक सुरक्षित कैसे रखा गया। दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर ने अब परिवार के सभी सदस्यों की मानसिक परीक्षण कराने के लिए सीएमओ को लेटर

भेजा है। रावतपुर इलाके के कृष्णापुरी निवासी आयकर अफसर विमलेश का डेढ़ साल पुराना शव पुलिस ने 23 सितंबर को उनके घर से बरामद किया था। डॉक्टरों के मुताबिक 22 अप्रैल 2021 को विमलेश की कोविड के दौरान मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने मृत घोषित करने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद से शव परिजन घर में सुरक्षित रखे हुए थे। पत्नी मिताली, पिता रामअवतार, मां और दोनों भाई दिनेश व सुनील

मिलकर शव की सेवा कर रहे थे। यह पूरा खुलासा आयकर अफसरों की जांच में हुआ था। पुलिस ने शव का फोरेंसिक परीक्षण नहीं कराया,हुई फजीहत पूरे मामले में पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने शव का फोरेंसिक परीक्षण नहीं कराया। इसके साथ ही बगैर पोस्टमार्टम कराए शव भी परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड का कहना था कि मामले में कोई आपराधिक कृत्य नहीं हुआ है। इसके चलते मामले में फोरेंसिक

जांच और पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। फजीहत होने के बाद अब मानसिक परीक्षण: शव का पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच नहीं होने पर पुलिस की जमकर फजीहत हुई है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने सीएमओ को एक लेटर लिखा है। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों का मानसिक परीक्षण और काउंसलिंग कराने की मांग की है। इससे कि भविष्य में परिवार के साथ फिर कोई ऐसी घटना नहीं घट सके और सुरक्षित हो सके।

फलाहार कार्यक्रम में उमड़ा जनसमूह शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने किया मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण दिया निर्देश



दैनिक बुद्ध का संदेश सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ वि

तुरंत ठीक करने के लिए खंड विकास अधिकारी को निर्देशित



पर आती हैं और सारे लोग उत्साह पूर्वक दुर्गा पूजा पर्व को मनाते हैं लेकिन कभी-कभी छोटी सी भूल के नाते कई लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी दुर्गा पूजा समिति या फिर शोहरतगढ़ विधानसभा के किसी नागरिक को दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी इसको मैं निरंतर देख रहा हूँ साथ ही जहाँ जहाँ पर भी मूर्ति विसर्जन किया जाएगा उन सभी स्थलों का मैंने निरीक्षण कर लिया है और खंड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए सभी जगहों पर साफ सफाई अभियान तुरंत चलाने का निर्देश दिया है विनय वर्मा ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान शोहरतगढ़ के सभी नागरिकों से मिलते हुए उनकी सारी समस्याओं को भी लगातार पूछ रहा हूँ यह किसी को भी कोई समस्या है तो वह तुरंत बताएं उसका समाधान तत्काल किया जाएगा विधानसभा शोहरतगढ़ के प्रत्येक नागरिक को आशीर्वाद देने के लिए धरती

दैनिक बुद्ध का संदेश बांसी/सिद्धार्थनगर। नगर के चंभेरा पैलेस प्रांगण में आयोजित फलाहार कार्यक्रम में उमड़े जनसमूह को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित करते हुए पूर्व विधायक दुमरियागंज राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि फलाहार कार्यक्रम से हिन्दू समाज में फैली आपसी भेदभाव, जाति पाति ऊंच नीच की कुरीतियों का नाश होगा और सम्पूर्ण हिन्दू समाज में एकता का संचार होगा साथ ही पूरे क्षेत्र में समरसता का भाव पैदा होगा, नवरात्रि के अवसर पर फलाहार जैसे पवित्र धार्मिक आयोजन नगर सहित गाँवों गाँवों में होने चाहिए जिससे पूरे क्षेत्र में हिंदुत्व की अलख गाँव गाँव में जगे फलाहार



कार्यक्रम में उमड़े जनसमूह से गदगद पूर्व विधायक ने सभी हि. यु.वा.भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। विशिष्ट अतिथि कपिलवस्तु सदर विधायक श्याम ली राही ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि धार्मिक पर्वों के अवसर पर किया गये

बांधने का सन्देश गाँव गाँव तक पहुंचेगा। इसी क्रम में कार्यक्रम को पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रामकुमार कुंवर जी, भाजपा पूर्व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राजेंद्र पांडेय प्रमुख भनवापुर पंडित लवकुश ओझा हि. यु. वा. जि.ला.सं.यो.ज.क.प्रेमनारायण दूबे, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अजय शर्मा, कार्यक्रम प्रभारी अजय वर्मा हि. यु.वा.पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, भाजपा जिलाउपाध्यक्ष नीरजमणि त्रिपाठी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बांसी अज्जू श्रीवास्तव जिलामंत्री आनंदशंकर मणि त्रिपाठी, श्याम पाठक प्र. आन.सं.घ. अध्यक्ष मिठवल

मौलेश्वरनाथ त्रिपाठी, विष्णु गिरी समेत आदि ने सम्बोधित किया तथा कार्यक्रम में संजय कन्नौजिया, आलोक अग्रहरी, मंटू जैसवाल, मुन्ना चौधरी, प्रधान हरिप्रसाद, चौधरी, वेदप्रकाश, गोपाल त्रिपाठी, ओम प्रकाश उर्फ चौधरी, राजन यादव, विजय दूबे, मनीष शर्मा, प्रमोद कुमार हिन्दू, संदीप कुमार, पप्पू मोर्या, राजू चौधरी, दीपक वर्मा, मनोज वर्मा, अंगद वर्मा, संदीप गौतम, प्रकाश गौतम, गोपाल चमार, श्रीनाथ तिवारी, निखिल अग्रहरी, सुरेश गौड़, अलंकार दूबे, राजकुमार प्रजापति समेत सैकड़ों हि.यु.वा.भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की उपस्थिति रही।

व्यापारी देश के रीढ़ की हड्डी होते हैं:राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल

ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर हो रही है करोड़ों की टैक्स चोरी:संदीप बंसल

दैनिक बुद्ध का संदेश इटवा/सिद्धार्थनगर। आयोजित हुआ व्यापारियों का शपथ ग्रहण समारोह व लोकल व्यापारियों से ही खरीदें समान राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल घोषित हो व्यापारी दिवस राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल बोले राष्ट्र निर्माण में व्यापारियों की भूमिका तुलसीपुर बलरामपुर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रमोद चौधरी ने कहा ऑनलाइन व्यापार बंद हो। इटवा जनपद में शाम को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम किया गया कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की

प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन व उसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर कमदालालपुर की छात्राओं के सरस्वती वंदना व स्वागत गीत से शुरु हुआ अतिथियों का व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने स्वागत किया कार्यक्रम का संचालन नितेश पांडेय ने किया कार्यक्रम में जिले के डीएम संजीव रंजन, एसपी अमिता आनंद, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मंत्री रिपन कसल, प्रदेश मंत्री अनुपम अग्रवाल, संगठन मंत्री आकाश गौतम जनपद बलरामपुर के जिला प्रभारी प्रमोद चौधरी, बस्ती मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल रवीन्द्र गुप्ता



कमलापुरी समाजसेवी बलरामपुर,आदि लोगों का वहां के व्यापारियों ने बहुत ही जोरदार स्वागत किया जिसमें बड़नी चाफा, बिस्कोहर बेवां चौराहा, भारतभारी बाजार व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम किया गया संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई मुख्य अतिथि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि व्यापारी किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था के रीढ़ होते हैं वह देश

के अच्छे समयों में शांति पूर्वक अपना व्यवसाय करते हैं और कठिन समय में देश के लिए अपनी तिजोरी खोल देते हैं। उन्होंने कहा कि आज शपथ ले रहे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को आश्वासन देता हूँ कि हम हमेशा उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं विशिष्ट अतिथि सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि हमारे जनपद के व्यापारियों ने कोरोना काल में किसी को भूखा सोने नहीं दिया इटवा के व्यापारी अनिल जायसवाल, ओम छापाड़िया, शंभुनाथ सोनी, बिस्कोहर के प्रभात जायसवाल ने दूरदराज से आने वालों को भोजन पानी व घरों तक भेजने के लिए साधन मुहैया कराया

इस अवसर पर बड़नी चाफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष संतोष गुप्ता, बिस्कोहर प्रभात जायसवाल, बेवां चौराहा श्याम सुंदर, भारत भारी व्यापार मंडल के अध्यक्ष सीपी जायसवाल व उनके साथ कुछ अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ली,इटवा व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुगंध अग्रहरी, इटवा के महामंत्री अनिल जायसवाल बांसी के घनश्याम जायसवाल शिव कुमार वर्मा, भाजपा नेता रामतेज शुक्ल, शिवनाथ चौधरी, बड़नी के भाजपा नेता सुनील अग्रहरी, फतेह बहादुर सिंह, सुधीर त्रिपाठी, आदि लोग कई हजारों की संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे।

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

दैनिक बुद्ध का संदेश सिद्धार्थनगर। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक



जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार की उपस्थिति में लोहिया कला भवन में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी संजीव रंजन द्वारा ग्राम प्रधानों से जानकारी प्राप्त की गयी कि ग्राम पंचायतों में हर घर जल योजना का कार्य चल



रहा है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम ने बताया कि जनपद में दो संस्था मेधा एवं एस0सी0एल0 द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने उपस्थित ग्राम प्रधानों को बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छता समिति का गठन कर उसका बैंक खाता खुलवा ले। ग्राम स्तर से 05 महिला एवं पंप आपरेटर, पंपलबर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, राजगीर, मोटर मैकेनिक की सूची तैयार करा ले। अधिशासी अभियन्ता जल निगम ने बताया कि ग्राम वासियों को कनेक्शन के उपरान्त जल शुल्क प्रतिमाह रू0 50 दाना होगा। जिलाधिकारी ने प्रोजेक्टर मैनेजर को कार्य की लागत, सम्पूर्ण विवरण का कार्यस्थल पर बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को पाइप डालने के लिए की गयी खुदाई को सही कराने का निर्देश दिया। इस बैठक में उपरोक्त के अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी शेषमणि सिंह, अधिशासी अभियन्ता जल निगम राजेन्द्र सिंह तथा अन्य संबधित अधिकारी ग्राम प्रधान आदि उपस्थित थे।

बीएसएफ जवान का शव सांसद व विधायक ने अंत्येष्टि स्थल बानगंगा नदी के लेदवा घाट तक पहुंचाया



दैनिक बुद्ध का संदेश शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर। जनपद के चिल्हिया थाना क्षेत्र के परसिया गाँव निवासी बीएसएफ के जवान इन्द्रेश का शव शोहरतगढ़ क्षेत्र के बानगंगा नदी के लेदवा घाट पर गाड़ ऑफ ऑनर देकर ससम्मान अंतिम संस्कार हुआ। बीएसएफ जवान इंद्रेश चतुर्वेदी का शव यात्रा उनके पैतृक गाँव परसिया से बीएसएफ की गाड़ी के द्वारा निकाली गई। जिसमें सांसद जगदंबिका



भारी संख्या में लोग शामिल हुए। शव यात्रा शोहरतगढ़ क्षेत्र के बानगंगा नदी के लेदवा घाट पर ले जाया गया। जहाँ अंत्येष्टि स्थल तैयार किया गया। फिर सांसद व विधायक ने बीएसएफ जवान का शव को अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचाया। बीएसएफ जवानों ने पार्टी कमांडर 11 वीं वाहिनी उमेश सिंह के नेतृत्व में गाँव ऑफ ऑनर दिया। अंतिम संस्कार किया गया। इस

मानव तस्करी होने एक नेपाली लड़की को भारतीय मानव तस्कर के चंगुल से बचाया



दैनिक बुद्ध का संदेश कपिलवस्तु/सिद्धार्थनगर। भारत नेपाल सीमा के खुनुवा बार्डर पर कपिलवस्तु के मर्यादपुर प्रहरी चौकी नेपाल के शान्ति पुनर्स्थापना गृह के वॉलंटियरों सदस्यों ने मानव तस्करी होने से एक नेपाली लड़की को भारतीय मानव तस्कर के चंगुल से बचाया। कपिलवस्तु नेपाल प्रहरी चौकी मर्यादपुर के चेकपोस्ट पर नेपाली एनजीओ शान्ति पुनर्स्थापना गृह के कल्पना क्षेत्री व उर्षा आचार्य को सूचना मिली कि एक भारतीय लड़का एक नेपाली लड़की को लेकर गोरखपुर जाने वाला है। तब तक एक लड़का लड़की आते दिखाई दिये। रोक कर पूछताछ किया गया तो लड़की ने बताया कि वह नेपाल के कपिलवस्तु नं0 पावडडा नम्बर 3 तौलिहवा की रहने वाले हैं। और मानव तस्कर ने अपना नाम मोहन चौहान गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी है बताया। लड़की ने बताया कि हमको गोरखपुर ले जाकर शादी करने को कहे थे। लड़की को उसके अभिभावक सुनील कुमार को व लड़के को सनिमा प्रिया यादव को सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान कपिलवस्तु नेपाल प्रहरी चौकी मर्यादपुर के एसएसआई गगन शाही, कल्पना क्षेत्री, उर्षा आचार्य, सुनील कुमार, सनिमा प्रिया यादव आदि मौजूद रहे।

शहीद भगत सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन

दैनिक बुद्ध का संदेश सिद्धार्थनगर। भगत सिंह वार्ड में शहीद भगत सिंह की जयंती का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ नगर पालिका सिद्धार्थनगर



के भगत सिंह वार्ड में भगत सिंह पार्क में सरदार भगत सिंह की मूर्ति पर सदर विधायक श्याम धनी राही और नगर पालिका अध्यक्ष श्याम बिहारी जयसवाल के कर कमलों से माल्यार्पण कर शहीद भगत सिंह की जयंती का कार्यक्रम किया गया इस कार्यक्रम में विजय कसौधन मुन्ना लाल प्रमोद जायसवाल शिवकुमार अभिलाष अमित अरुण आदि गणमान्य उपस्थित थे. विधायक ने बताया कि श्याम बिहारी के अथक प्रयासों से भगत सिंह पार्क उनकी जयंती के अवसर पर नगर को एक धरोहर के तौर पर उपलब्ध हो चुका है इसका आनंद दूर-दूर से बच्चे और परिवार के लोग उठा रहे हैं यह हमारे जैसे छोटे कस्बे के लिए हर्ष की बात है कि यहाँ ओपन जिम जैसी सुविधाएँ हैं जिनके माध्यम से भगत सिंह के पद चिन्हों पर युवा चल सकता है।

लेखपाल सन्तुष्ट, नहीं करेंगे धरना

दैनिक बुद्ध का संदेश सिद्धार्थनगर। लेखपाल संघ और तहसीलदार के बीच हुए सकारात्मक समझौते से लेखपाल सन्तुष्ट, नहीं करेंगे धरना।



लेखपाल संघ पंकज मिश्रा का निलंबन वापस करने,अनंग नाथ शुक्ला का विभागीय कार्यवाही समाप्त किये जाने, अनैतिक स्थानांतरण निरस्त करने की मांग की थी। [मांगे न माने जाने पर 29 सितम्बर से धरना देने की बात कही थी। आज तहसीलदार सदर राम ऋषि रमन ने लेखपाल संघ से वार्ता करने को बुलाया। वार्ता में तहसीलदार के सकारात्मक वार्ता से लेखपाल संघ धरना न करने का निर्णय लिया। वार्ता में राजस्व निरीक्षक शीतल द्विवेदी, अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव, मन्त्री देवानन्द, रामकरन गुप्ता, अशोक, राजेश, अनूप यादव, कृष्ण भूषण द्विवेदी, योगेन्द्र वर्मा, शशांक सौरभ, कृष्णानन्द चौधरी, बिंदुसार मोर्य, कमलेश, राहुल मणि, विनोद, त्रिपाठी, राजेश, शिवशंकर यादव, गणेश त्रिपाठी, देवेन्द्र, सूर्यभान सिंह, वीर विक्रम, ज्ञान प्रकाश, दिलीप श्रीवास्तव, अमित, बृजेश त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।

बेटियां दो कुल का भला करती हैं- तहसीलदार

दैनिक बुद्ध का संदेश सिद्धार्थनगर। बेटियाँ दो कुल का भला करती हैं उक्त विचार तहसील विधिक साक्षरता शिविर के सचिवतहसीलदार राम ऋषि रमन ने कही वह आज तहसील सभा कक्ष महिलाओं को जागरूक करने सम्बंधी अपना विचार रख रहे थे। उन्होंने ने कहा कि बेटियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। पुत्री रूप में पिता के घर को और पत्नी रूप में पति के घर को तारती हैं। इस अवसर पर राजस्व निरीक्षक शीतल द्विवेदी, विजय गुप्ता, अम्बरीश, श्रीराम चौरसिया, नजमुल हसन, श्रवण शुक्ला, नरेन्द्र, राजेश, प्रेम प्रकाश, आशोक त्रिपाठी, सुबोध गुप्ता, कृष्णा नन्द चौधरी, अशोक गुप्ता, राहुल त्रिपाठी, अजीत गुप्ता, रमेश गुप्ता, गणेश त्रिपाठी, शिव शंकर यादव, अमित, आदि उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

दूसरा, विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? सिर्फ मोदी हटाओ। मोदी ने क्या आपात्काल जैसी कोई भयंकर भूल कर दी है या पिछली कांग्रेस सरकार की तरह वह भ्रष्टाचार में डूब गई है? तीसरा, हमारे विपक्ष के पास नेता तो है ही नहीं, उसके पास कोई वैकल्पिक नीति भी नहीं है। कोई नक्शा या सपना भी नहीं है। अगले ...

मोदी को इनसे कोई खतरा नहीं

आज के दिन तीन बड़ी खबरें हैं। ये तीनों अलग-अलग दिखाई पड़ रही हैं लेकिन तीनों आपस में एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा? दूसरी खबर यह कि देश के लगभग सभी प्रमुख विरोधी दल मिलकर भाजपा-विरोधी मोर्चा खड़ा कर रहे हैं। तीसरी खबर यह कि यदि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनना पड़ गया तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यदि अशोक गहलोत का बस चलेगा तो सचिन पायलट को वे अपना स्थान क्यों लेने देंगे? जिस व्यक्ति ने उनकी कुर्सी हिलाने के लिए जमीन-आसमान एक कर दिए थे और जिसे मुख्यमंत्री ने निकम्मा तक कह दिया था, उसका मुख्यमंत्री बन जाना गहलोत की इकनमी हो जाना है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का कोई अर्थ नहीं है। जिसे प्रियंका और राहुल जो चाहें, सो बना दें तो फिर आप चाहें प्रधानमंत्री बन जाएं या कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं, आप रबर के टपे से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। यों भी गहलोत चाहते थे कि वे मुख्यमंत्री और पार्टी-अध्यक्ष, दोनों बने रहें लेकिन राहुल ने एक व्यक्ति, एक पद का बयान खुले-आम देकर गहलोत की मन्शा पर पानी फेर दिया। वैसे गहलोत की यह इच्छा गलत नहीं थी, क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों बने रह सकता है तो वह मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बना रह सकता है? इसमें शक नहीं कि आज कांग्रेस की जो दुर्दशा है, उसके मूल में बापकमाई का



असली मसला है। देश में अपने बाप या माँ के दम पर जो भी नेता बने हैं, उनका अहंकार रावण को भी मात करता है। कांग्रेस का भी असली रोग यही है। गहलोत इस रोग से मुक्त हैं। वे खुद-मुख्तार हैं। जमीनी नेता हैं। विनम्र और मिलनसार हैं। वे नए और पुराने सभी कांग्रेसियों को जोड़ने में सफल हो सकते हैं लेकिन असली सवाल यह है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी इस कांग्रेस में उनकी हैसियत क्या होगी? यदि उनकी हैसियत सिर्फ एक मुनीम की होगी, मालिक की नहीं तो वे रबर का टप्पा बनकर रह जाएंगे। कांग्रेस की हालत आज जो है, उससे भी बदतर होती चली जाएगी। जहां तक चौधरी देवीलाल के जन्म दिन पर देश के विपक्षी दलों के एक होने का प्रश्न है, उसके मार्ग में कई रोड़े हैं। पहला तो यह कि विपक्ष का एकछत्र नेता कौन बनेगा? क्या कांग्रेस किसी अन्य को अपना नेता मान लेगी? सिर्फ मोदी हटाओ। मोदी ने क्या आपात्काल जैसी कोई भयंकर भूल कर दी है या पिछली कांग्रेस सरकार की तरह वह भ्रष्टाचार में डूब गई है? तीसरा, हमारे विपक्ष के पास नेता तो है ही नहीं, उसके पास कोई वैकल्पिक नीति भी नहीं है। कोई नक्शा या सपना भी नहीं है। अगले चुनाव के पहले यदि मोदी से कोई भयंकर भूल हो जाए तो ओर बात है, वरना 2014 में भी मोदी के लिए कोई गंभीर चुनौती आज तो दिखाई नहीं पड़ रही।

चीन से चिंतित अमेरिका

अमेरिका ने चीन को दुनिया में अपने वर्चस्व के लिए खतरा समझ लिया है। नतीजा है कि अब अपनी तरक्की और विकास को भी वह चीन की प्रतिद्वंद्विता के आईने में ही देखने लगा है। ये बात बेहचिक कही जा सकती है कि अब लगभग रोजमर्रा के स्तर पर चीन की चिंता में अमेरिका की काफी ऊर्जा खर्च होती है। अमेरिका ने चीन को दुनिया में अपने वर्चस्व के लिए खतरा समझ लिया है। नतीजा है कि अब अपनी तरक्की और विकास को भी वह चीन की प्रतिद्वंद्विता के आईने में ही देखने लगा है। इसकी ताजा मिसाल एक रिपोर्ट है। इसमें चेतावनी दी गई है कि अमेरिका ने अगर रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी बढ़त बनाए रखने के उपायों में ताकत नहीं झाँकी, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वह चीन से पिछड़ जाएगा। इस मामले में अध्ययन के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने नेशनल सिक्युरिटी कमीशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एनएससीएआई) का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट को- मिड डिकेड चौलेंजिंग टू नेशनल कॉम्प्यूटिवनेस- के नाम से जारी किया है। इसमें उन खतरों का जिक्र है, जो आधुनिक तकनीक में चीन के आगे निकल जाने से अमेरिका के लिए पैदा होंगे। कहा गया है कि उस अवस्था में चीन का विश्व अर्थव्यवस्था पर दबदबा बना जाएगा। वह अगली पीढ़ियों की टेक्नोलॉजी को विकसित कर खरबों डॉलर कमाने में सक्षम हो जाएगा।

उस हाल में चीन अपनी सफलता के आधार पर अपनी शतनाशाही व्यवस्था के बेहतर होने का दावा करेगा। साथ ही निगरानी तकनीक को वह दुनिया भर में फ़ैलाएगा, जिससे व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए खतरे पैदा होंगे। तो यह सिफारिश की गई है कि अमेरिका को अपने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए। उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने विकास को स्वरूप देने में करना चाहिए। उसे अपने सहयोगी देशों के साथ मिल कर तकनीक का वैकल्पिक मॉडल दुनिया के सामने रखना चाहिए, जिससे यह संदेश जाए कि बिना तानाशाही व्यवस्था को अपनाए भी देश सफल और समृद्ध हो सकते हैं। जाहिर है, ये निष्कर्ष एक तरह से जो बाइडेन प्रशासन की सोच का दोहराव है। बाइडेन प्रशासन मौजूदा दुनिया को लोकतंत्र बनाम तानाशाही के टकराव के रूप में पेश करती रही है। लेकिन मुद्दा है कि लोकतंत्र को बेहतर दिखाने की उसकी कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। जाहिर है, ऐसे मामलों में ठोस उपलब्धियां दुनिया को नजर आती हैं। शोर मचाना पर्याप्त नहीं होता।

नफरत है राष्ट्रधर्म!

मतलब पक्ष बनाम विपक्ष, मेरे अपने बनाम दूसरे, समर्थक बनाम विरोधी, हिंदू बनाम मुसलमान आदि के तमाम भेद क्या देशभक्त बनाम देशद्रोही, मोदीभक्त बनाम मोदी विरोधी, धर्मी बनाम विधर्मी के नफरती सांचों में ढले हुए नहीं हैं? फिर बुलडोजर, जय श्री राम, चाहे जिस पर छापे, चाहे जिसे जेल में डालो और पूरे मीडिया का उपयोग क्या नफरत के राष्ट्र धर्म में विकसित औजार नहीं है?...

हरिशंकर व्यास पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ किस दुनिया में जी रहे हैं। तभी उनका नफरत को कोसना और उनका टीवी चैनलों व एकरों पर टीकरा फोड़ना आश्चर्यजनक है। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कानून बनाए। सोचें, उस सरकार से उम्मीद, जिसका राष्ट्रधर्म और राष्ट्र मकसद नफरत है। नफरत की जो गंगोत्री है। कल्पना करें कि जस्टिस जोसेफ की जब टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह व उनके अफसरों ने सुनी होगी तब उन्होंने नफरत की किस भाव-भंगिमा में जज साहेब पर सोचा होगा। क्या दिल्ली की सत्ता, देश की सत्ता, हिंदू राष्ट्र और राजनीति के मौजूदा दिमाग में रस्ती भर भी जज साहेब की चिंता किलक हुई होगी? क्या मीडिया, टीवी चैनल, एकर तनिक भी परेशान हुए होंगे? कतई नहीं। क्यों? इसलिए कि ये सब मौजूदा राष्ट्रधर्म के पालक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तथा संघ परिवार के सच्चे, व नफरत के कर्तव्य पथ पर चलने वाले सेनानी हैं। इन टीवी चैनलों से ही हिंदुओं की बुद्धि है, उनका ज्ञान है और सपने हैं। प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है। भक्ति का अंधविश्वास है। भारत बुद्धि का गंवार निर्माण है। प्रजा का सत्ता गुलाम बनना है। क्या मैं गलत हूँ: दिल पर हाथ रख कर ईमानदारी से सोचें कि क्या नफरत, नफरती सरकार,

नफरती मीडिया और लोगों की नफरती प्रयोगशाला। नफरत का लोकतंत्र। नफरत बुद्धि से सन् 2022 में भारत का राष्ट्र का राजधर्म। नफरत का मीडिया। नफरत निर्माण होता हुआ नहीं है? नफरत वह जादू का ज्ञान और बुद्धि। नफरत की राजनीति।



है, वह ईवीएम मशीन है, जिससे नरेंद्र मोदी की चुनावों में बार-बार छप्पर फाड़ जीत है। तमाम बरबादियों के बावजूद हिंदुओं की भक्ति का स्थायी बना रहना है। नफरत है तो जयश्री राम के उद्घोष की ताकत है। उसका एक्सपोर्ट है। हाल में ब्रिटेन में इसके एक्सपोर्ट से लेस्टर शहर की सड़कों पर हिंदुओं ने जय श्री राम का नारा लगाया या नहीं? ब्रितानी गोरों ने जयश्री राम बनाम अल्लाह हू अकबर के नारों से नफरत की भारत विश्वगुरुता को जाना या नहीं?: तभी सोचें आठ वर्षों की नई भारत पहचान पर। नफरत का एक उपमहाद्वीप। नफरत की

प्रयोगशाला। नफरत का लोकतंत्र। नफरत बुद्धि से सन् 2022 में भारत का राष्ट्र का राजधर्म। नफरत का मीडिया। नफरत निर्माण होता हुआ नहीं है? नफरत वह जादू का ज्ञान और बुद्धि। नफरत की राजनीति। नफरत का पथ संचलन। नफरत का कर्तव्य पथ। नफरत की तीसरी पानीपत लड़ाई। सोचें, क्या है भारत आज? सन् 2022 में 140 करोड़ भारतीय, उनकी सरकार, उनकी राजनीति, उनका समाज व्यवहार तथा जीवन दिनचर्या की क्या है एक अकेली प्रमुख बात? क्या देश की प्राणवायु? क्या है देश का दिमाग, बहस, विमर्श, लिखना-पढ़ना और सोशल मीडिया? तो नोट करें। हर बात का सत्व-तत्व नफरत और उसमें विकसित दिमागी सांचा। कल्पना करें नरेंद्र मोदी जब अपनी कैबिनेट की बैठक करते होंगे तो चेहरों को देखते हुए वे नितिन

गडकरी जैसे चेहरे पर मन ही मन नफरत के भभकों में नहीं होते होंगे? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह श्अपनाघ जो भी नहीं है उससे नफरत में दुश्मन नहीं मानते? आलोचनाओं और आलोचक से नफरत नहीं करते? भाजपा क्या कांग्रेस से नफरत नहीं करती? कांग्रेस क्या भाजपा व संघ से नहीं करती? मतलब पक्ष बनाम विपक्ष, मेरे अपने बनाम दूसरे, समर्थक बनाम विरोधी, हिंदू बनाम मुसलमान आदि के तमाम भेद क्या देशभक्त बनाम देशद्रोही, मोदीभक्त बनाम मोदी विरोधी, धर्मी बनाम विधर्मी के नफरती सांचों में ढले हुए नहीं हैं? फिर बुलडोजर, जय श्री राम, चाहे जिस पर छापे, चाहे जिसे जेल में डालो और पूरे मीडिया का उपयोग क्या नफरत के राष्ट्र धर्म में विकसित औजार नहीं है? इसलिए नफरत गंगोत्री है। देश की आबोहवा है। हिंदुओं की वैश्विक प्रदूषण के बीच नई सेहत की प्राणवायु है। कौम का चरित्र है। नई पीढ़ी और खास कर युवाओं का जोश है। कारोबार, शिक्षा, कला-संस्कृति को बदलने का मंत्र है। नई बुद्धि का निर्माण है। बॉलीवुड को सुधारने का संकल्प है। देश-कौम पहचान और हिंदू विश्वगुरुता की ख्याति है। सबसे बड़ी बात जो नफरत है राष्ट्र-राज्य का राष्ट्रधर्म। राष्ट्र नवनिर्माण की घुट्टी। प्रधानमंत्री मोदी की नई अमृत वेला और उसके अगले पच्चीस सालों का अमृत पथ है नफरत! और सुप्रीम कोर्ट नफरत को गालियां दे रहा है!

इसके अलावा, (15-49 वर्ष) आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत, जिनका लम्बाई-वजन अनुपात (बॉडी मास इंडेक्स) सामान्य से कम है, एनएफएचएस-4 के 22.9 प्रतिशत से घटकर एनएफएचएस-5 में 18.7 प्रतिशत रह गया है। एक नेक और समग्र लक्ष्य के साथ शुरू किए गए पोषण अभियान का उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना और छोटे बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने ...

डॉ. मुंजपारा महेंद्र भाई प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत आह्वान के अनुरूप प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना या पोषण अभियान- जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है- में पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जमीनी स्तर पर समुदायों को गलत सूचना या बिना जानकारी वाली प्रथाओं, जो पीढ़ियों से निरंतर कुपोषण के कारण रही हैं, से मुकाबला करने के लिए एकजुट करना है। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कार्यक्रम के कुछ उपायों में शामिल हैं- समुदाय आधारित कार्यक्रमों का आयोजन (सीबीडी) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा व्यापक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के माध्यम से आग्रह करना तथा इसे जन आंदोलन का रूप देना। पोषण अभियान के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0) की घोषणा 2021-2022 के बजट में एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में की गई थी, ताकि पोषण

सामग्री, उपलब्धता, पहुंच और परिणामों को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य, कल्याण तथा रोग व कुपोषण से प्रतिरक्षा को समर्थन देने वाले उभरते तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। यह कार्यक्रम जन आंदोलन के निर्माण के लिए सामाजिक और व्यवहार संबंधी परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) को अपने रणनीतिक स्तंभों में से एक के रूप में मानता है। पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के उद्देश्य से यह अभियान, जागरूकता अभियान चलाने और गतिविधियों का संचालन करने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य कुपोषण की चुनौती का मिशन-मोड में समाधान करना है। सामुदायिक एकजुटता सुनिश्चित करने और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, अभियान ने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये व्यवहार में परिवर्तन पर जोर देने के लिए पूरे साल निरंतर प्रयास किए हैं। इन अभियानों ने कई प्लेटफार्मों का लाभ उठाते हुए पोषण संबंधी विभिन्न संदेश प्रसारित किए हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों के साथ-साथ, इन गहन अभियानों में शामिल हैं, पोषण माह और पोषण पखवाड़ा का वार्षिक आयोजन, जिनका उद्देश्य माताओं और समुदायों को स्वस्थ पोषण व्यवहार अपनाने

के लिए प्रेरित करना है। अभियान के तहत, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा सप्ताह के एक निश्चित दिन, महीने में दो बार, समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीडी) आयोजित किए जा रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों में अन्नप्रशासन दिवस, सुपोषण दिवस (विशेष रूप से पुरुषों को जागरूक करने पर केंद्रित), बच्चों के बड़े होने की खुशी मनाने, आंगनबाड़ी केंद्र में स्कूल-से-पहले की तैयारी, पोषण में सुधार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े संदेश, हाथ धोने और स्वच्छता का महत्व, रक्त की कमी (एनीमिया) की रोकथाम, पौष्टिक भोजन का महत्व, आहार विविधता आदि शामिल हैं। अभियान के शुभारंभ के बाद से देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3.70 करोड़ से अधिक सीबीडी आयोजित किए जा चुके हैं। पोषण पर ध्यान केंद्रित करने एवं अच्छे पोषण तरीकों और व्यवहारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, पोषण अभियान के जन आंदोलन घटक के तहत दो प्रमुख आउटरीच तथा सामाजिक और व्यवहार में परिवर्तन अभियान चलाए जाते हैं। अभियान के शुभारंभ के बाद से, चार राष्ट्रीय पोषण माह- सितंबर में आयोजित होने वाला एक

पोषण अभियान: जन आंदोलन के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन

महीने का अभियान और चार शेषोषण पखवाड़ा 29 मार्च में आयोजित होने वाला एक पखवाड़े का अभियानय व्यापक पहुंच और बेहतर परिणामों के साथ आयोजित किए गए हैं। प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं- पोषण मेला, प्रभातफेरी, स्कूलों में पोषण पर सत्र, स्वयं सहायता समूह की बैठकें, एनीमिया शिविर, बच्चों की वृद्धि की निगरानी, आशाआंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा घर का दौरा, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी), आदि। अब तक आयोजित किए गए पोषण माह और पोषण पखवाड़ा कार्यक्रमों में सम्बन्धित मंत्रालयों, राज्योच्चकेंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्र पदाधिकारियों की उत्साह के साथ व्यापक भागीदारी देखी गयी है। अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, पीआरआई, ब्लॉक और जिला स्तर के कर्मचारियों, राज्य सरकार के विभागों व मंत्रालयों ने पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कड़ी मेहनत करने का उदाहरण पेश किया है। चौथे राष्ट्रीय पोषण माह 2021 में 20.32 करोड़ गतिविधियां देखी गईं, जबकि 21 मार्च -4 अप्रैल, 2022 में आयोजित पोषण पखवाड़े के दौरान जन आंदोलन से जुड़ी 2.96 करोड़ गतिविधियां आयोजित की गईं। मासिक सत्रों के माध्यम से पोषण अभियान के लाभार्थियों को पोषण के अलावा, अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) परिकल्पना की गई थी। इसे 2007 से पूरे देश में एक सामुदायिक मंच के रूप में लागू किया जा रहा है, जो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणालियों को आपस में जोड़ता है और एक-दूसरे से जुड़े कार्यों को सुविधाजनक बनाता है। यह स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल विकास

और पोषण व स्वच्छता सेवाओं को घर पर उपलब्ध कराने तथा बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समुदाय में आहार विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने और कुपोषित बच्चों को विभिन्न खाद्य समूह उपलब्ध कराने के लिए पोषण वाटिका या पोषण उद्यान विकसित किए गए हैं, ताकि समुदाय द्वारा उपयोग किये जाने के लिए स्थानीय व मौसमी उपज के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। पोषण वाटिका का माह और पोषण पखवाड़ा कार्यक्रमों में सम्बन्धित मंत्रालयों, राज्योच्चकेंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्र पदाधिकारियों की उत्साह के साथ व्यापक भागीदारी देखी गयी है। अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, पीआरआई, ब्लॉक और जिला स्तर के कर्मचारियों, राज्य सरकार के विभागों व मंत्रालयों ने पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कड़ी मेहनत करने का उदाहरण पेश किया है। चौथे राष्ट्रीय पोषण माह 2021 में 20.32 करोड़ गतिविधियां देखी गईं, जबकि 21 मार्च -4 अप्रैल, 2022 में आयोजित पोषण पखवाड़े के दौरान जन आंदोलन से जुड़ी 2.96 करोड़ गतिविधियां आयोजित की गईं। मासिक सत्रों के माध्यम से पोषण अभियान के लाभार्थियों को पोषण के अलावा, अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) परिकल्पना की गई थी। इसे 2007 से पूरे देश में एक सामुदायिक मंच के रूप में लागू किया जा रहा है, जो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणालियों को आपस में जोड़ता है और एक-दूसरे से जुड़े कार्यों को सुविधाजनक बनाता है। यह स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल विकास

स्वास्थ्य एवं बच्चा और शिक्षा पर है। राष्ट्रीय पोषण माहय पोषण और अच्छे स्वास्थ्य पर 6 यान केंद्रित करने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है और सामंजस्यपूर्ण तरीके से पोषण अभियान के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5), (2019-21) की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 4 (एनएफएचएस-4), (2015-16) की तुलना में विभिन्न पोषण संकेतकों में सुधार किया है। एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के मुताबिक, बच्चों में बौनापन 38.4 प्रतिशत से घटकर 35.5 प्रतिशतय वेरिस्टिंग 21.0 प्रतिशत से घटकर 19.3 प्रतिशत और कम वजन की मौजूदगी 35.8 प्रतिशत से घटकर 32.1 प्रतिशत हो गयी है।



श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन राजा सभी आंगन बाड़ी केंद्रों पर बक्श सिंह के आवास पर प्रारंभ अन्नप्राशन दिवस का आयोजन हुआ

हरदोई।नवरात्रि के शुभारंभ पर परम श्रद्धेय आचार्य श्री संतोष भाई जी के पावन सान्धिच्ये । आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 27 सितंबर 2022 को धर्मशाला रोड स्थित राजाबख्श सिंह के आवास पर मंगल कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा बैड बाजे के साथ घर से प्रारंभ होकर इटौली ग्राम के प्राचीन मंदिरों से होते हुए नटवीर पुलिया पर स्थित मन्दिर पर आई। वैदिक ब्राह्मण गणो ने वेद्वचन से माँ जगदम्बा का आहवान किया। कलश पूजन के पश्चात मंगल

है। जगदम्बा की कृपा से ही भगवन शिव की प्राप्ति होती है। भागवत के प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृ ण्णाय वयं नुमरु ।। भगवान सत—चित—आनंद स्वरूप है विश्व के उत्पति के हेतु हैं। तीनों तापो को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्रीकृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। आनंद हमारे अपने भीतर है लेकिन वह आत्ममंथन करके हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे दूध में नखन है लेकिन वह दिखाई नहीं देता वैसे मखन को प्राप्त करने के लिए दूध से

दही—दही का मंथन करके माखन प्राप्त होता है।आचार्य जी ने कहा कि शास्त्रों में श्रीमद्भागवत कथा को सत्कर्म कहा गया है। भागवत ही सभी ग्रंथों का सार है। क्योंकि भगवान जब भक्त के जीवन में आते हैं तो भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं। भक्ति के पथ पर परीक्षा में सफल होने पर भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। प्रथम दिन के कथा सत्र विश्राम के समय मुख्य रूप से राजा बख्श सिंह, राजेश सिंह,सुरेश चन्द्र सिंह,आशीष सिंह आदि बहुत से भक्त उपस्थित रहे।

हरदोई।पोषण माह के अंतर्गत निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आज सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नप्राशन दिवस का आयोजन किया गया ।अन्नप्राशन दिवस का आयोजन छोटे बच्चों को ऊपरी भोजन या आहार की जरूरत के प्रति माताओं को जागरूक करने के लिए किया जाता है ।प्राय: देखा गया है कि माताएँ बच्चों को 1 साल या 2 साल तक बच्चे को केवल स्तनपान या दूध ही पिलाती रहती है ।जबकि छह महीने के पश्चात बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि

एवं धात्री महिलाएँ भी केंद्र पर आमंत्रित की गयी ।अन्न प्राशन संस्कार के माध्यम से सभी महिलाओं किशोरियों को यह संदेश दिया गया कि छह माह के बाद बच्चे को ऊपर की खाद्य सामग्री देना शुरू करें ,कौन कौन सी खाद्य सामग्री सामग्री बच्चे को दी जा सकती है इसके बारे में भी बताया गया ।बच्चे की बढ़ती आयु के साथ ऊपरी आहार की मात्रा कितनी बढ़ानी चाहिए इसके बारे में भी जानकारी दी गई ।कार्यकर्ताओं ने उपस्थित महिलाओं को यह जानकारी दी कि बच्चे को मसला हुआ केला,गाढ़ी दाल ,चावल का पानी या माँड,सूजी की खीर ,नमकीन ध्मीठा दलिया पतली और खहूब पकी हुई खिचड़ी इत्यादि दी जा सकती है ।बच्चों को शुरुआत में 1 कटोरी दिन भर में तीन चार घंटे के अंतराल पर खिलाएँ ।उसके बाद बच्चे की आयु बढ़ने के साथ ही यह मात्रा भी धीरे ६ गीरे बढ़ा दी जाए ।बच्चे को ऊपरी आहार देने के साथ ही सफाई और सुरक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है ।माँ जो भी बनाएँ वह साफ सुथरे बर्तन में पकाएँ ।अपना हाथ साफ करने के बाद ही बच्चे को खाना खिलाएँ ।जो भी खिलाएँ वह ताजा और तुरंत पका हुआ होना चाहिए।बच्चे के खाने में थोड़ी घी या तेल की मात्रा भी मिलाकर खिलाने से बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है ।यह सभी जानकारीध्संदेश अन्न प्राशन संस्कार के माध्यम से दिया गये ।बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया ।जिस बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार किया गया उस बच्चे को उपहार स्वरूप खिलौने ,फल मिठाई इत्यादि दिए गए ।

गणेश पूजन के साथ शुरु हुआ रामलीला के मंचन का कार्यक्रम

हरदोई।विगत वर्षों की भांति इस बार भी शारदीय नवरात्र के अवसर पर क्षेत्र के खनिकलपुर गांव में रामलीला मंचन के कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजन के साथ हुई, इस बार श्रद्धालुओं ने गजब का उत्साह देखने को मिला। रामलीला मंचन के कार्यक्रम के प्रथम दिन गांव के वयो वृद्ध सभ्रांत व्यक्ति शिव रत्न लाल मिश्र द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान फीता कटते ही अबीर गुलाल की बौछार के साथ भगवान श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा पांडाल गुंजायमान हो उठा। तत्पश्चात ग्राम प्रधान सच्यंद्र कुमार पांडे द्वारा प्रथम पूज्य गजानन की पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई इसके बाद कमेटी के कलाकारों ने पहले दिन नरम मोह की लीला का मंचन किया गया जिसको देखकर श्रद्धालु झूम उठे।इस बार लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला।

श्री विनायक समिति ने बढ़ाये मदद के हाथ

हरदोई।वर्तमान समय में देश में लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। लंपी वायरस के प्रकोप से जहां पूरे देश में गौमाता अपने जीवन पर आये सबसे बड़े संकट से लड़ रही हैं तो वही संकट हरदोई जिले में भी गौमाताओं के ऊपर बना हुआ है। पूरे जनपद में गौ सेवा के लिए विख्यात सुरभि गौ सेवा समिति द्वारा इस वायरस की रोकथाम एवं गौ वंश के उपचार हेतु निरंतर रूप से प्रयास किये जा रहे हैं। श्री विनायक समिति द्वारा आज गौ सेवको को दवाइयों एवं इंजेक्शन सहित अन्य आवश्यक सामग्री की किट उपलब्ध कराई गई तथा उनको आगे भी यथा संभव मदद का भरोसा दिया। समिति के संस्थापक सोमेंद्र अग्रवाल जी ने आगे भी मदद की बात कही। सुरभि गौ सेवा समिति के प्रशांत गुप्ता ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समिति के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य मे लगे है। गौ वंशो की सुरक्षा हेतु सभी को आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।समिति के संरक्षक हरगोविंद सेठी,अनुराग मिश्र,राजकुमार अग्रवाल,गौरव सिंह भदौरिया,श्यामजी गुप्ता, सुशील गुप्ता, प्रांशु पांडेय, अखिलेश गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

किशोर बंदियों को गुणवत्तापरक नास्ता एवं भोजन समय से उपलब्ध करायेंत- एमपी सिंह

हरदोई।जिला जज राजकुमार सिंह एवं जिलाधिकारी एमपी सिंह ने अपरान्ह राजकीय संप्रक्षण गृह किशोर, रद्देपुरवा का निरीक्षण किया तथा बाल बंदियों को उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं,भोजन, तेल,साबुन,साफ—सफाई, विद्युत, पेयजल आदि व्यवस्थाओं को देखकर संतोष सिंहा किया तथा संप्रक्षण गृह के प्रबन्धक राकेश कुमार सक्सेना को निर्देश दिये कि किशोर बंदियों को गुणवत्तापरक नास्ता एवं भोजन समय से उपलब्ध कराने के साथ भोजनालय में विशेष सफाई व्यवस्था रखें तथा किशोर बंदियों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण करें और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कर दवायें उपलब्ध करायें। निरीक्षण में जिला जज व जिलाधिकारी ने पुस्तकालय, शिक्षण कक्ष तथा बाल बंदियों के आवासों को देखा तथा बाल बंदियों से कहा कि शिक्षा के साथ कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर समाज की मुख्यधारा से जुड़े। इस अवसर पर सचिव विधिक प्राधिकरण, उप जिलाहि।कारी सदर स्वाती शुक्ला, प्रधान मजिस्ट्रेट विवेक चौधरी, तहसीलदार सदर प्रतीत त्रिपाठी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार आदि उपस्थित रहे।

जन्मदिवस के मौके पर सरदार भगत सिंह को याद किया गया

फिरोजाबाद । सीटू के जिला कार्यालय महावीर नगर गली नंबर 7 सरदार भगत सिंह का जन्म दिवस कॉम नवल सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता मेंसंपन्न हुआ। सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस पर कॉमरेड भूल सिंह यादव ने भारत की आजादी के क्रांतिकारी नेता सरदार भगत सिंह को याद करते हुए उनके विचार विस्तार पूर्वक बताएँ। पार्टी के पूर्व जिला मंत्री कामरेड सुरेश कुमार चक ने क्रांतिकारी नेताओं को याद करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला तथा बताया कि भगत सिंह ने अपने जीवन काल में देश की

दिग्गज डरावने लगभग 10 हजार राजा महाराजा न्योते में आए और देखते ही देखते आयोजक राजा जनक की घोषणा पर बड़े बड़े वीर बाणासुर रावण आदि अपनी राजा अपनी अपनी बाहें फड़काने लगे और अपनी अपनी मूंछों पर बड़ी बेसब्री से ताव देने लगे। उन्हें देखकर ऐसा परिलक्षित हो रहा था। सभा म्थ उपस्थित एक से बड़े एक दिग्गज राजा महाराजा बार बार ईर्ष्या द्वेषवश लंका के राजा रावण को देखकर भयाक्रांत हो रहे थे। सभा म्थ उपस्थित राजा

सूचना संकुल निर्माण के लिए धनराशि मांग पत्र पुन: सूचना निदेशक एवं शासन को प्रेषित करें: डीएम

गरीबों को हक एवं पीड़ितों को न्याय दिलाना प्राथमिकता:एमपी सिंह

हरदोई।जिला पत्रकार स्थायी समिति की बैठक जिलाधिकारी एमपी सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर के जिलाधिकारी कक्ष में आहूत की गयी। स्थायी समिति के सदस्यों ने परिचय के उपरान्त जिलाधिकारी को पत्रकार बन्धुओं के बैठने हेतु स्थायी स्थान की मांग पर जिलाधिकारी ने जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार से पूछा तो उन्होंने बताया

कि शासन से स्वीकृत सूचना संकुल निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृ त के लिए पत्रावली शासन में लम्बित है, इस पर जिलाधिकारी के शीघ्र ही ई।ओ से वार्ता कर उक्त सड़क को ठीक कराया जायेगा। बैठक में अन्य जनपद की समस्याओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने कहा कि गरीबों को हक एवं पीड़ितों को न्याय दिलाना प्राथमिकता रहेगी। बैठक में नगर के नघेटा रोड की खराब सड़क के सम्बन्ध

नई सड़क पर उपद्रव में फंडिंग करने के आरोपित बिल्डर पर रासुका की तैयारी

कानपुर। नई सड़क पर उपद्रव में फंडिंग करने के आरोपित बिल्डर हाजी वसी पर लटक ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) की कार्यवाई होगी। विशेष जांच दल (एसआइटी) ने रासुका की कार्यवाई के लिए फाइल तैयार करके जिलाधिकारी दफ्तर में अनुमोदन के लिए भेजी है। अनुमोदन मिलते ही फलाईओवर से कूदा युवक,मौत फिरोजाबाद । थाना उत्तर क्षेत्र में फलाईओवर से कूदकर आत्महत्या कर ली। वह थाना लाइनपार का रहने वाला था। उस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। लेबर कॉलोनी निवासी शाहनवाज उर्फ छोटू (2८) पुत्र अली शेर ने बौध।ाश्रम चौराहा के समीप देर रात पल्लाईओवर ब्रिज से नीचे छलांग लगा दी। उसके नीचे गिरते ही वहां काफी लोग एकत्रित हो गए। पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां उसकी मौत हो गई। आधार कार्ड के आधार पर उसके परिवारी जनों को घटना के बारे में बताया गया। उसके बारे में पता चलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवारी जन भी अस्पताल पहुंच गए। परिजनों ने बताया 2 दिन पूर्व उसका परिवार में विवाद हुआ था। वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भाई ने बताया वह शाम को कपड़ा लेने की कहकर घर से निकला था।

। में सदस्यों ने जिलाधिकारी का ध्यान आर्कषित किया ,इस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही ई।ओ से वार्ता कर उक्त सड़क को ठीक कराया जायेगा। बैठक में अन्य जनपद की समस्याओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने कहा कि गरीबों को हक एवं पीड़ितों को न्याय दिलाना प्राथमिकता रहेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी,

नई सड़क पर उपद्रव में फंडिंग करने के आरोपित बिल्डर पर रासुका की तैयारी

ार बनाकर बाजार बंदी की घोषणा की गई थी। बाजार बंदी के विरोध को लेकर शुरु हुआ विवाद देखते ही देखते उपद्रव में बदल गया था। इसमें पुलिस पर पथराव,फायरिंग और बमबाजी की गई थी। मामले में पुलिस ने मुकदमे दर्ज करके हयात जफर हाशमी, जावेद अहमद, बाबा बिरियानी के

पॉक्सो के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

फिरोजाबाद । न्यायालय ने पॉक्सो के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर क्षेत्र निवासी दंपति 8 मार्च 2015 को सब्जी लेने गए थे। उनकी 9 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। उसी दौरान उनका रिश्तेदार लाल सिंह पुत्र श्यामलाल निवासी वजीरपुर हरी पर्वत आगरा घर पर आ गया। बालिका को अकेला देख लाल सिंह ने दरवाजे बंद कर बालिका के साथ बलात्कार का प्रयास किया। बालिका के चिल्लाने पर पड़ोसी वहां पर पहुंच गए। लाल सिंह वहां से भाग गया। बालिका के माता—पिता घर लौट कर आए तो उन्हें सारी घटना का पता चला। उन्होंने लाल सिंह के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में लाल सिंह ने फोन पर बालिका के परिजनों को धमकी भी दी। पुलिस ने विवेचना कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 विशेष न्यायाधीश पोक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने लाल सिंह को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर ६30000 अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

नौतनवां में एक रात तीन स्थानों पर चोरी

नौतनवां। थाना क्षेत्र के गांव बरवा कला में रात चोरों ने हाल्ट स्टेशन के टिकट घर और दो घरों में चोरी की वारदात की है। हाल्ट स्टेशन के निजी टिकट घर में चोर ताला तोड़कर सामान और नकदी ले गए। एक ही रात तीन स्थानों पर चोरी की घटना से गांव के लोग सहमे हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नौतनवां थाना क्षेत्र के बरवा कला गांव में रात चोरों ने सेवानिवृत्त सैनिक रामराज त्रिपाठी के घर में खिड़की के रास्ते घुसकर ताला तोड़कर ढाई हजार नकदी व जेवर चुरा ले गए। सुबह जब रामराज के बेटे रमाशंकर त्रिपाठी जगे और मकान के दूसरे तल पर गए तो देखा कि कमरे का ताला टूटा है। कमरे में आलमारी में रखा जेवर और नकदी गायब थी। दूसरी घटना आशुतोष सिंह के घर की है। चोरों ने सीढ़ी के रास्ते घर में घुसकर नकदी और जेवर लेकर चले गए। तीसरी घटना रेलवे हाल्ट स्टेशन बरवा कला की है, जहां टिकट घर के दरवाजा का ताला टूटा था। सुबह जब सुरेंद्र सिंह टिकट काटने गए तो ताला टूटा देखा। कमरे में रखा सामान गायब था। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार राय ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

त्योहार को देखते हुए सीमा पर बढ़ी गश्त

खनुआ। सोनौली पुलिस व सशस्त्र सीमा बल बीओपी हरदीडाली के जवानों ने आगामी त्योहार को देखते हुए सीमा पर संयुक्त गश्त की। सोनौली कोतवाली क्षेत्र के खनुआ चौकी प्रभारी रामरतन यादव व सशस्त्र सीमा बल बीओपी हरदीडाली के चंदन सिंह ने भारत नेपाल सीमा के मुर्दहिया घाट, सुंडी घाट, कैथवलिया उर्फ बरगदही घाट , खनुआ आदि स्थानों पर संयुक्त सघन गश्त कर चप्पे-चप्पे को देखा।

लंपी रिकन डिजीज : जिले को मिले 30 हजार टीके

महाराजगंज। जिले में चिहित 69,102 गांवंशीय पशुओं को लंपी स्किन डिजीज से बचाने के लिए टीका लगाया जाएगा। जिले के सभी 12 ब्लॉकों में पशुओं के टीकाकरण के लिए कुल 19 टीमों को जिम्मेदारी दी गई है। टीम में शामिल पशु चिकित्सालय से जुड़े तीन से पांच जिम्मेदार ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर टीकाकरण में भूमिका निभाएंगे। जिले को 30 हजार गॉट पॉक्स टीका मिल चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में फैली लंपी बीमारी से बचाव के लिए पूरे प्रदेश में पहल की जा रही है। पशुपालन निदेशालय की ओर से गांवंशीय पशुओं को टीका लगाने के लिए 30 हजार टीका उपलब्ध कराया गया है। प्रतिदिन लगभग 1500 पशुओं के टीकाकरण की योजना है। अभी भी जिले को 39 हजार टीके की आवश्यकता है, जिसकी मांग की गई है। जिले के फरेंदा, नौतनवां, निचलौल, परतावल, सदर, घुघली व पनिरारा में दो-दो टीम तथा फरेंदा, बृजमनगंज, धानी, सिसवा व मिठौरा में एक-एक टीम लगाई गई है। टीकाकरण के लिए उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन प्रसार अधिाकारी, फार्मासिस्ट व पैरावेट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक टीम में तीन से पांच सदस्यों को शामिल किया गया है।

नेपाल : धूमधाम से मनाया विश्व पर्यटन दिवस

भैरहवां (नेपाल)। नेपाल में 43 वें विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नेपाल के बेलहिया में समारोह का आयोजन हुआ। भारत सहित कई देशों से नेपाल पहुंचे पर्यटकों का गौतम बुद्ध की स्मृति चिह्न भेंट कर माला पहनाकर स्वागत किया गया। नेपाल की धरती पर पहला कदम रखने वाले विदेशी पर्यटकों का गृह मंत्री बालकृष्ण खांड, लुंबिनी प्रांत के पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मंत्री मंत्री डिल्ली बहादुर चौधरी और भैरहवा नगरपालिका के मेयर इस्तियाक अहमद, सीपी श्रेष्ठ ने स्वागत किया। रूपनदेही जिले के पर्यटन व्यवसायियों का भी तिलक लगाकर व फूल मालाओं से स्वागत किया गया। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में विश्व पर्यटन दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीडीओ रूपनदेही भरत मणि, लुंबिनी प्रदेश के डीआईजी (पुलिस) नल प्रसाद उपाध्याय, सशस्त्र विभाग के डीआईजी विदुर खड्का, रूपनदेही जिला के पुलिस के एसपी रवींद्र रेग्मी, होटल व्यवसायी श्रीचन्द्र गुप्ता, भीम बहादुर क्षेत्री, चन्द्र प्रकाश आदि मौजूद रहे।

तेज बुखार के मरीजों को चिह्नित करेंगी आशा कार्यकर्ता

महाराजगंज। एक अक्तूबर से जिले में संचारी रोग नियंत्रण माह व दस्तक अभियान चलेगा। इस अभियान के दौरान सभी आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बुखार, टीबी, कोरोना के मरीजों एवं कुपोषित बच्चों को चिह्नित करेंगी। ये बातें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी श्रीभागवत सिंह ने कहीं। वह सदर सीएचसी और ब्लॉक सभागार में आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी मरीजों की अलग-अलग सूची तैयार करें। मच्छरों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करें। ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर लवली वर्मा ने कहा कि गृह भ्रमण के दौरान आशा कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें। आशा कार्यकर्ता गांव के पंचायत सहायक से मिलकर आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनवाएं। गृह भ्रमण के दौरान नवजात शिशु और मां की सेहत की जांच करें। किसी प्रकार की गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत सीएचसी को सूचना भेजें, जिससे समय से उपचार किया जा सके। उन्होंने आशा डायरी को पूर्ण करने व विभाग की ओर से संचालित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर पूनम, गीता, संध्या, अनीता, सविता, रीतू, धनेशरी आदि मौजूद रहीं।

सीखड़ में श्री दक्षिणेश्वर काली मां का किया गया प्राण प्रतिष्ठा

मीरजापुर । जिले के सीखड़ विकास खंड क्षेत्र के मगरहा लरछुट संपर्क मार्ग पर नवरात्रि प्रतिपदा तिथि पर नव निर्मित मंदिर में श्री दक्षिणेश्वर काली मां के भव्य प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इस दौरान आचार्य पंडित नीलकंठ तिवारी ने विधि विधान से पूजन हवन कराया. पुजारी पंकज बाबा द्वारा पूजन हवन कर प्राण प्रतिष्ठा किया गया. तत्पश्चात मां का प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान डाक्टर विंध्य बहादुर सिंह, राजेश सिंह, राजू ,अशोक सिंह, अवनीश सिंह, बनारसी सिंह, सहागम, हिंगलाल, मंगरू सिंह, राम अचल सिंह, सुनील शुक्ला, बोदे मिश्रा, श्यामलाल सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालूजन उपस्थित रहे।

विंध्य कॉरिडोर कार्य पर मुख्यमंत्री कार्यालय से रखी जा रही है नजर

विन्ध्याचल, मीरजापुर । शारदीय नवरात्र के दौरान भी विन्ध्य कॉरिडोर कार्य प्रगति पर है। इसका प्रमुख कारण विगत चौबीस सितम्बर को मुख्यमन्त्री ने मां विन्ध्यवासिनी दर्शन व कॉरिडोर निरीक्षण के पश्चात आहुत बैठक में जिला प्रशासन व कार्यदाई संस्था को कॉरिडोर कार्य को शीघ्रातिशीघ्र आगामी छह महीने में पूर्ण करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार प्रगतिकार्यों का फोटो व वीडियो मांगा जा रहा है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॉरिडोर मुद्दे पर काफी गम्भीर हैं।

कृषि योग्य भूमि पर की अवैध प्लाटिंग, प्रशासन ने कसा शिकंजा तो हो गए फरार

देवरिया। शहर के पास के इलाकों में कृषि योग्य भूमि पर अवैध प्लाटिंग करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजस्व विभाग की टीम ने सर्वे शुरू किया तो इसकी भनक प्रापटी डीलरों को लग गई। कार्रवाई से बचने का तोड़ निकालने के लिए शहर से सटे अधिकांश प्रापटी डीलरों ने बोर्ड पर पेंट लगवाकर मिटवा दिया है, ताकि उनकी पहचान न हो सके। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की सख्ती के बाद लेखपालों ने अपना गला फंसते देख अवैध प्लाटिंग करने

वालों की सूची बनानी तेज कर दी है। अभी तक पांच प्रापटी डीलर चिहित किए गए हैं। इनका ब्योरा खंगाला जा रहा है। इनको नोटिस देकर जवाब तलब करने की तैयारी की जा रही है। शहर के पास के करीब पचास से अधिाक गांवों में कृषि भूमि को टुकड़ों में विभाजित कर कॉलोनी बसाई जा रही है। करीब दो दशक से अधिक समय से खेती की जमीन बिना भू-उपयोग बदले आवासीय प्लाट काटने वाले पर कार्रवाई न होने से इस धंधे को पंख लगता गया और किसानों की भूमि कम दामों में

खरीद-फरोख्त कर प्रापटी डीलर मालामाल होते गए। बिना नक्शा पास कराए ही कॉलोनियां बसने लगी। इस पर शिकंजा कसने के लिए जिलाधिाकारी ने आठ सितंबर को नियंत्रक प्राधिाकारी विनियमित क्षेत्र बोर्ड की बैठक कर अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर की अगुवाई में टीम का गठन किया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, नगर नियोजक एवं वित्तीय मामलों के जानकार

शामिल हैं। मास्टर प्लान के जेई एके ओझा ने बताया कि अभी तक पांच लोगों की सूची बनाई गई है। बोर्ड पर पेंट लगाने से पहचान छिपाने का प्रयास शहर के कई इलाकों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक दिक्कत तो उन जगहों पर हो रही है, जहां पर प्लाट काट दिए गए हैं और जलभराव हो गया है। इन इलाकों में हो रही अवैध प्लाटिंग: शहर के पास के

इलाके दानोपुर, परसिया अहीर, अगस्तपार, सोंदा, इजरही, सोनूघाट, परसिया भंडारी, पिपरा चंद्रभान, कठिनइया, कतरारी, खरजरवा, सकरापार, तिलई बेलवा, बरवा है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक दिक्कत तो उन जगहों पर हो रही है, जहां पर प्लाट काट दिए गए हैं और जलभराव हो गया है। इन इलाकों में हो रही अवैध प्लाटिंग: शहर के पास के

नगरपालिका को ‘अपने’ ही लगा रहे टैक्स में चूना

देवरिया। नगर पालिका में राजस्व निरीक्षकों का हस्ताक्षर स्कैन कर भवनों का नामांतरण और स्वकर निर्धारण करने का खेल कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा है। इसके कारण मनमर्जी टैक्स जमाकर नगर पालिका को हर माह लाखों रुपये का चूना लगाया जा रहा है।

अफसरों के पास पहुंची तो उन्होंने जांच करने के लिए एक कमेटी बना दी है।

राजस्व निरीक्षक दीपक पति तिवारी ने नगर पालिका अध्यक्ष, अपर जिलधिकारी प्रशासन को पत्र देकर बताया है कि वार्ड नंबर दस रामगुलाम टोला पूर्वी के एक व्यक्ति के भवन की मूल पत्रवाली नामांतरण के प्रक्रिया के तहत लंबित थी। इसके संबंध में ईओ ने विभागीय आख्या के लिए निर्देश दिया था। इस पत्रवाली में बिना दिनांक के नोट सीट के कर निर्धारण कर दिया गया है। जांच के दौरान हस्ताक्षर स्कैन करके बनाया गया है। जिसके आधार पर पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया।

कार्य किया जा रहा है, जिससे कर निर्धारण में बड़ी चूक होने से नगर पालिका परिषद को राजस्व का नुकसान हो रहा है। नगर पालिका के सूत्रों के मुताबिक, नामांतरण और कर निर्धारण प्रक्रिया में बड़ा गोलमाल हो रहा है। हाल यह है कि विभागीय मिलीभगत से हजारों रुपये का टैक्स कब मामूली रकम में सिमट जाए और कब पूरा टैक्स जमा करने वाला बकाएदार बन जाए, यह कहा नहीं जा सकता है। फर्जी दस्तावेज के जरिये नामांतरण और कर माफ करने का काम किया जा रहा है। यहां तक आनलाइन व्यवस्था होने के बाद कर निर्धारण और जमा करने का अधिाकांश कार्य मैनुअल ही किया जा रहा है। इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कर्मचारी मैनुअल पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं।

प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक कमेटी के निर्वाचन की तिथि घोषित

महाराजगंज। शहर के पूर्व माध् यमिक विद्यालय परिसर में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष केशव मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने के लिए विचार-विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष केशव मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रांतीय नेतृत्व की ओर से 19 सितंबर को लखनऊ में आयोजित बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। विकास क्षेत्रों के अध्यक्ष, मंत्री सहित पूरी कमेटी के निर्वाचन का मार्गदर्शन मिला है। ब्लॉक स्तरीय निर्वाचन लया रूपरेखा के अनुसार दो से 15 नवंबर तक और युवा सीआरपीएफ जवान की असमय मौत से आहत हैं परिजन और ग्रामीण

कराया जाएगा। शिक्षकों की लंबित विभिन्न समस्याओं जैसे एरियर, नगरीय भत्ता, दिव्यांग भत्ता, चयन वेतनमान की लंबित पत्रावली के निस्तारण, मिड डे-मील के कन्चर्जन के भुगतान सहित कई समस्याओं के त्वरित निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में शिक्षक संघ पूरी तरह से सहयोग करेगा, लेकिन अध्यापकों का आर्थिक शोषण कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिलामंत्री सत्येंद्र कुमार मिश्र ने वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2021 की सदस्यता, आय-व्यय को प्रस्तुत किया। सदस्यता अभियान 15 अक्तूबर तक पूर्ण कराने एवं नवंबर में

निर्वाचन के संबंध में चर्चा हुई। सहमति बनी की दो से 15 नवंबर के बीच क्षेत्रों के डेलिगेशन का प्रकाशन करके पूरी पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का निर्वाचन कराया जाए। क्षेत्रों के निर्वाचन के बाद माह दिसंबर में जिले का निर्वाचन कराया जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष बैजनाथ सिंह, जिला कोषाध्यक्ष मनौवर अली, हरीश शाही, वीरेंद्र सिंह, राघवेंद्र पांडेय, धन प्रकाश त्रिपाठी, अरविंद गुप्ता, अलाउद्दीन खां, सीताराम जायसवाल, देवेंद्र मिश्र, प्रदुमन कुमार सिंह, अखिलेश पाठक, धन्नु चौहान आदि मौजूद रहे।

युवा सीआरपीएफ जवान की असमय मौत से आहत हैं परिजन और ग्रामीण

लालगंज, मीरजापुर । सीआरपीएफ जवान की मौत के बाद पिता को सांत्वना देने कलवारी गांव में समाजसेवी जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचे है। जिसके कारण कलवारी गांव से सटे दर्जनों गांव के ग्रामीण उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि उनके लाल की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों का ख्याल रखने वाले जिले में जनप्रतिनिधियों का आकाल पड़ गया है। कलवारी गांव निवासी सीआरपीएफ जवान अमरेश गिरी की मौत के बाद परिजन मायूस है कि उनके बेटे की मौत की संदिग्ध जांच कब होगी और कितने देर बाद होगी। जिसकी सूचना उन्हें नहीं मिल पाई है। परिजनों व ग्राम वासियों में एक ही बात जोरदार चर्चा हो रही है कि इतनी बड़ी घटना के बाद सत्ता पक्ष व विपक्ष सीखे कोई समाज सेवी जनप्रतिनिधि सांत्वना देने घर पर नहीं पहुंचे हैं। इस बात का मलाल कलवारी गांव की ग्रामीणों को भी सताने लगा है। ग्राम वासियों का कहना है कि इतने बड़े हादसा के बाद कोई बड़ा नेता घर पर परिजनों को सांत्वना देने नहीं पहुंचा यह एक बड़ी बात है। वही छोटी-छोटी घटनाओं के बाद जनप्रतिनिधि घर पहुंच कर सांत्वना देकर वाहवाही लेते हैं लेकिन सीआरपीएफ जवान की मौत के बाद परिजनों का ख्याल रखने की बात तो दूर सांत्वना देने भी नहीं पहुंचे हैं।

राज्य शिक्षक पुरस्कार पाण्डेय को मिला दो वर्ष का सेवाविस्तार



■ प्रोत्साहन स्वरूप एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन देय होगा
■ राज्य परिवहन निगम की बसों में प्रतिवर्ष चार हजार किलोमीटर की याता निःशुल्क कर सकते हैं

उपलब्धि पर जनपद सिद्धार्थ नगर के शिक्षा जगत में खुशुशी जाहिर की गयी है। शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सहायक शिक्षा निदेशक डॉ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, पूर्व बीएसए डॉ अरविन्द पाठक, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रान्त उपाध्यक्ष राधे रमन त्रिपाठी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष आदित्य शुक्ला, उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं राज्य पुरस्कार से सम्मानित अरुणेन्द्र त्रिपाठी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित नसीम अहमद, राज्य पुरस्कार से सम्मानित दुर्गेश मिश्र, जिला व्यायाम शिक्षक उपेंद्र नाथ उपाध्याय,आदि ने शुभकामनाएं ज्ञापित की हैं।

से सम्मानित दयाशंकर पाण्डेय को मिला दो वर्ष का सेवाविस्तार

सिद्धार्थनगर। जिले के लोटन क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय पननी में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत दयाशंकर पाण्डेय को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021से सम्मानित किए जाने के उपरांत आज दो वर्ष का सेवाविस्तार दिए जाने सम्बन्धी आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा श्री दयाशंकर पाण्डेय को कार्यालय में बुलाकर ससम्मान प्रदान किया गया। वे अब 62 की जगह 64 वर्ष पर सेवानिवृत्त होंगे। इसके अलावा प्रोत्साहन स्वरूप एक वेतन वृद्धि के बराबर अतिरिक्त वैयक्तिक वेतन दिए जाने संक्े। आदेश भी जारी किया गया। उनको राज्य परिवहन निगम की बसों में प्रतिवर्ष चार हजार किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा कूपन भी मिलेगा। उनकी इस उपलब्धि पर जनपद सिद्धार्थ नगर के शिक्षा जगत में खुशुशी जाहिर की गयी है। शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सहायक शिक्षा निदेशक डॉ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, पूर्व बीएसए डॉ अरविन्द पाठक, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रान्त उपाध्यक्ष राधे रमन त्रिपाठी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष आदित्य शुक्ला, उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं राज्य पुरस्कार से सम्मानित अरुणेन्द्र त्रिपाठी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित नसीम अहमद, राज्य पुरस्कार से सम्मानित दुर्गेश मिश्र, जिला व्यायाम शिक्षक उपेंद्र नाथ उपाध्याय,आदि ने शुभकामनाएं ज्ञापित की हैं।

गांव में बना जिम खाना, सामुदायिक शौचालय का बुरा हाल

दैनिक बुद्ध का संदेश
कपिलवस्तु/सिद्धार्थनगर। बर्दपुर ब्लाक के ग्राम सभा चकइजोत टोले



■ ग्राम सभा चाकइजोत टोला में बना जिम,वा शौचालय
■ ग्राम प्रधान के कारनामे से सुरिर्वयों में रहता है,गांव,कई बार हो चुके गांव,रिक्वरी के आदेश

में बने दुर्गा मंदिर के सामने कीचड़,गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नवरात्रि के पावन पर्व पर लोगों की आस्था जगी है,जो उपवास रखकर मनोकामना पूर्ण के लिये देवी का पूजा अर्चना करने जाते है।मुख्यद्वार पर गंदगी होने के कारण पूजन,दर्शनार्थी कीचड़ सराबोर हो जाते है। साफसफाई की व्यवस्था नाकाफी है। पानी निकलने के लिये कोई व्यवस्था नहीं।जिससे सड़क पर जलभराव रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी सफाई के लिये ग्राम प्रधान से कहा गया,अस्वासन ही मिल रहा है, गांव के मुखिया है लालजी जायसवाल। वही ग्राम सभा मे बना जिम एक वर्ष से दुश्वारियां झेल रहा है।जिम में ताला लगा हुआ है,ग्रामीण युवा जिम के लिये बंचित रह जाते है। ग्रामीण युवा कहते है कि इसमें घास की झाड़ियां लगी है।जहरीले सापों का जमावड़ा है।इसमे जिम करना क्या इसमें घुसने लायक भी नहीं,सरकारी धन का दुरुपयोग ही साबित हो रहा है। इसी से सटे बने सामुदायिक शौचालय का बुरा हाल है, लगी पानी की टंकी,टोटी टूटी हुई है, शौचालय में पानी नहीं रहता, उसपर नियुक्त सफाई कर्मी के फर्जी भुगतान का मामला भी चर्चा का विषय है। कर्मी आता नहीं भुगतान में समझौता की बात कही जा रही है। एडीओ पंचायत बर्दपुर ने इसकी जांच भी की है, चकइजोत ग्राम सभा अपने कारनामो से सुखियों में रहता है,कई कार्यों की रिक्वरी के आदेश भी हुए है, विभाग के लचीले रवैये से मामला ठंढे बस्ते में चल जाता है। इसी लिये जांच के बाद भी यथास्थिति कायम है।

धूमधाम से मनाई भगतसिंह की जयंती

युवाओं के प्रेरणास्रोत हैं भगत सिंह: जेके जायसवाल

दैनिक बुद्ध का संदेश
गोरखपुर। बीएसएन ग्लोबल स्कूल शाहपुर के तत्वावधान में बुधवार को



शहीद ए आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती बड़ी श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। सर्वप्रथम भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। सभी अध्यापकों और बच्चों ने भी भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। बच्चों को सम्बोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक जे के जायसवाल ने कहा कि भगत सिंह युवाओं के प्रेरणास्रोत रहेंगे। इनका नाम विश्व में 20 वीं शताब्दी के अमर बलिदानियों में सदैव सम्मान पूर्वक लिया जाता रहेगा। भगतसिंह ने देश की आजादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया वह आज के युवकों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। भगतसिंह अपने देश के लिए अपना जिवन समर्पित कर दिया और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। छात्रों, युवाओं और नेताओं समेत पूरा देश शहीद भगत सिंह से प्रेम करता है। भगत सिंह ने कभी किसी धर्म, जाति आयु और लिंग में भेदभाव नहीं किया। इस अवसर पर चन्द्रकला मोर्य, चन्द्रमति यादव,दीपक सिंह, वर्षा श्रीवास्तव, कुसुम, सुमन, प्रतिभा, बबीता आदि मौजूद रहे।

छात्र-छात्राओं में बाँटा गया निःशुल्क स्मार्टफोन

राज्य सभा सांसद ने 146 छात्र-छात्राओं को वितरित किया स्मार्टफोन

दैनिक बुद्ध का संदेश सोनभद्र। छात्र-छात्राओं में पाते ही छात्र-छात्राओं के चेहरे सुगम व आधुनिक शिक्षा की सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क स्मार्टफोन बंटने का वितरण किया जा रहा है। विकास खण्ड करमा के जे एस पी महाविद्यालय कसया कला सोनभद्र में स्मार्टफोन वितरित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए राज्यसभा सांसद रामशकल ने छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण किया। रमेश कुमार मिश्रा, ग्राम प्रधान मोहन सिंह पटेल, धनंजय पाठक, डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा प्रबंधक प्रमोद महिला महाविद्यालय, अजय सिंह प्रबंधक विध्व कन्या महाविद्यालय राबर्टसगंज, आनंद कुमार सिंह, दीपू पांडे, किसान युवा मोर्चा जिलाउपाध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा, रवि कुमार सिंह, रविकान्त



खुशी से खिल उठे। इस दौरान मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामशकल ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 'प्रदेश की योगी सरकार विद्यार्थियों से किए वायदे को पूरा करने के प्रति कृत संकल्प है। आधुनिक शिक्षा में स्मार्टफोन बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसके माध्यम से छात्राएँ बहुत सारी जानकारियाँ कम समय में आसानी से हासिल कर सकेंगे।

साथ ही शिक्षित होकर कॉलेज सत्य प्रकाश गौतम व एम सिंह ने किया गया। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज प्रांगण में राज्यसभा सांसद ने आम के पौधे को रोपण किया तथा इसकी सुरक्षा करने का भी संकल्प दिलाया। स्मार्ट फोन पाने वाली छात्राओं में नीलू सिंह, आरती मौर्या, प्रियंका, ज्योति मौर्य, पूजा देवी, मनीषा यादव, रंजना, तारा, रीना कुमारी, सुनीता, ममता, उर्मिला पांडेय, सीमा और प्राची पाठक आदि उपस्थित रही। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अध्यापक कर्मचारियों में चीफ प्रॉक्टर डॉ रतन लाल सिंह, अभिमन्यु सिंह, एम सिंह, दिलीप पटेल, सत्य प्रकाश गौतम, जयप्रकाश वर्मा, लक्ष्मीरमण पाठक, मकसूद सिंह, दिलीप, अजित कुमार मौर्य, विजय सिंह पटेल, सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ एवं अभिभावक उपस्थित रहे।

तथा विकसित समाज की संकल्पना को भी साकार कर सकेंगे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉ प्रसन्न पटेल, उप प्रबंधक ममता सिंह, संस्थापक पारसनाथ सिंह, प्राचार्य डॉक्टर संजय सिंह द्वारा मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट देकर स्वागत

भाकपा कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह की जयन्ती पर किया नमन

पथ प्रदर्शक भगतसिंह आज भी है जीवित - आर के शर्मा

दैनिक बुद्ध का संदेश गुरमा/सोनभद्र। बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद ए आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर उनकी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धासुमन अर्पित कर और दीप जलाकर इकलाब जिंदाबाद-जिंदाबाद नारे लगा कर राष्ट्रनायक को याद किया। क्षेत्रीय कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रनायक के जन्मदिन पर वैचारिक परिचर्चा भी किया गया, जहाँ वक्ताओं ने भगतसिंह के जीवनकाल और आजादी के दौर में उनकी भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि आज भी देश को भगतसिंह जैसे क्रांतिकारी विचारों की जरूरत है, देश में साम्राज्यवाद का बोलबाला होता जा रहा है, समाजवाद की जरूरत है जिसके लिए देश को युवाओं को भगतसिंह के विचारों पर अमल करने की जरूरत है। साम्राज्यवाद के चलते मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट अपने चरम पर है, जिसे केवल भगतसिंह के विचारों से ही रोका जा सकता है। देश में आबादी के साथ साथ बेकारी और बढ़हाली भी



लगातार बढ़ रही है। इसे दूर करने एवं अमर रहा है वहीं शहीद ए आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर शपथ लेने की जरूरत है कि हमें उनके साम्यवादी सिद्धांतों पर समाज में गोलबंदी लाने की निरंतर आवश्यकता है। शहीद ए आजम भगत सिंह आज भी जीवित हैं उनके विचारों को मानने वाले करोड़ों में है जरूरत है तो सिर्फ लोगों को प्रेरित करने की और शहीदों के अथुरे सपनों को पूरा कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने की। भगतसिंह मरे नहीं हैं, वे जीवित हैं, विचारों में और पथ प्रदर्शक के रूप में। आईए भगतसिंह को पढ़ें, उनसे सीखें और उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें। इस अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड आर के शर्मा, हृदय नारायण गुप्ता, देव कुमार विश्वकर्मा, नौजवान समा के नेता दिनेश्वर वर्मा, राम सुरत खरवार, संतोष कुमार, विरेन्द्र सिंह गोंड, प्रेम चंद्र, अमर नाथ सूर्य, मोहम्मद मुस्तफा, सुनील सोनी, राम अर कोल व नागेन्द्र कुमार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

शहीदों के सपनों का भारत बनाने का प्रयास तो नहीं ही हो रहा है, बल्कि उल्टे अमर शहीदों के बलिदानों को एवं उनके विचारों को इतिहास के नेपथ्य में डालने का सचेत प्रयास हो रहा है, जिसके खिलाफ शहीदों एवं उनके विचारों को धरातल पर उतारने की जरूरत है, इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है तभी हम शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। आज बदलते भारत में जहां जाति, धर्म और मजहब की तुष्टिकरण का बोलबाला होता जा

गणेश पूजन के साथ रामलीला राम व सीता जन्म पर हर्षित हुए लीला प्रेमी

मंचन का हुआ शुभारंभ

दैनिक बुद्ध का संदेश रेणुकूट/सोनभद्र। पिपरी रामलीला रासलीला समिति द्वारा विगत कई वर्षों से तुर्रा बाजार के रामलीला मैदान पर लगातार आयोजित हो रहे रामलीला मंचन मंगलवार दिनांक 27 सितंबर देर शाम को श्री गणेश पूजन के साथ प्रारंभ हो गया। 8 दिनों तक चलने वाली इस रामलीला का समापन दिनांक 5 अक्टूबर को रावण दहन के साथ होगा। मुख्य अतिथि के रूप में पधारें उप जिलाधिकारी पिपरी शैलेंद्र मिश्रा ने श्री गणेश पूजन तथा श्री रामचरित मानस का पूजन कर रामलीला का शुभारंभ कराया। इस अवसर पर रामलीला रासलीला समिति के संरक्षक प्रमोद जायसवाल रामाशंकर अग्रहरि एवं समिति के अध्यक्ष अंकुर जायसवाल कनौजिया सहित सभी सदस्यों ने भी गणेश पूजन एवं आरती किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि को समिति के अध्यक्ष द्वारा माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। रामलीला मंचन के प्रथम दिन कलाकारों द्वारा मंच पर एक साथ रामचन्द्र कृपालु भगवन आरती, नारद मोह तथा नारद द्वारा भगवान विष्णु को तीन जन्म तक राक्षस बनने का श्राप देना, मनु सतरुपा के द्वारा घोर तपस्या से भगवान नारायण को पुत्र रूप में प्राप्ति का वरदान, रावण द्वारा भगवान शिव से चंद्रहास तलवार की प्राप्ति आदि लीलाओं का मनमोहक मंचन किया गया जिसका सैकड़ों लीला प्रेमियों ने आनंद उठाया। इस मौके पर पिपरी नगर पंचायत अध्याक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह भाजपा नेत्री इशिका पांडे सहित नगर के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

दैनिक बुद्ध का संदेश अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रेणुकूट/सोनभद्र। हिण्डालको इसके उपरान्त श्री राम एवं रामलीला परिषद द्वारा

हिण्डालको रामलीला मैदान पर दूसरे दिन की रामलीला का शुभारंभ राजा दशरथ द्वारा किये गये पुत्रेष्टि यज्ञ के सजीव मंचन के साथ हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ से राजा दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, कैकेई और सुमित्रा को पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है। रामलला के जन्म की खबर पर पूरे अयोध



या में खुशी की लहर दौड़ जाती है और रामलला के दर्शन पाकर मैदान पर उपस्थित हजारों दर्शकों में भी उल्लास छा जाता है और पूरा मैदान श्री राम के जयकारे से गूँज उठता है और इसके बाद की लीलाओं में गुरु वशिष्ठ नामकरण करते हुए चारों भाइयों को क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न का नाम प्रदान करते हैं। आगे चारों भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने बाल सुलभ लीलाओं से दर्शकों को बरबस

फांसी के फंदे पर लटकता मिला विवाहिता का शव

दैनिक बुद्ध का संदेश मसौली/बाराबंकी। बीती रात्रि एक विवाहिता शव घर के अंदर दुपट्टे के सहारे फांसी पर लटका हुआ पाया गया। मृतका का एक वर्ष पूर्व विवाह हुआ था सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है वहीं मृतका के मायके वालों ने दहेजहत्या का आरोप लगाया है। मामला मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम गेंदौरा का है। गेंदौरा निवासी राहुल गौतम पुत्र अखिलेश की 20 वर्षीय पत्नी शिवानी गौतम का शव फांसी पर दुपट्टे के सहारे लटका हुआ पाया गया यह घटना उस समय की है। जब पति राहुल सहित सास ससुर गांव में ही चल रही भागवतकथा में गये हुए थे। देर रात्रि जब राहुल घर वापस आया तो कमरा अंदर से बंद था काफी आवाज लगाने के बाद भी दरवाजा न खुलने पर जब होल से झांका तो कमरे के अंदर पत्नी फांसी के फंदे से झूलती हुई मिली। मधु यरात्रि हुई घटना से गांव में कोहराम मच गया

और रात्रि में ही पुलिस व मृतका के मायके ग्राम चंदवारा थाना सफदरगंज को सूचना दी। मौके पर पहुंची मसौली पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मृतका के पति राहुल को पुलिस ने हिरासत में लेकर पृच्छताछ कर रही हैं। वहीं मृतका के पिता राकेश कुमार पुत्र नें मसौली पुलिस को तहरीर दे कर दहेज में प्लाट एव 75 हजार रुपये की मांग पूरी न करने पर हत्या का आरोप लगाया है मृतका के पिता राकेश ने बताया कि 2 मई 2021 को पुत्री की शादी रीति रिवाज से की थी तथा हैसियत मुताबिक दान दहेज भी दिया था लेकिन ससुरालीजन बराबर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे।

दैनिक बुद्ध का संदेश और रात्रि में ही पुलिस व मृतका के मायके ग्राम चंदवारा थाना सफदरगंज को सूचना दी। मौके पर पहुंची मसौली पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मृतका के पति राहुल को पुलिस ने हिरासत में लेकर पृच्छताछ कर रही हैं। वहीं मृतका के पिता राकेश कुमार पुत्र नें मसौली पुलिस को तहरीर दे कर दहेज में प्लाट एव 75 हजार रुपये की मांग पूरी न करने पर हत्या का आरोप लगाया है मृतका के पिता राकेश ने बताया कि 2 मई 2021 को पुत्री की शादी रीति रिवाज से की थी तथा हैसियत मुताबिक दान दहेज भी दिया था लेकिन ससुरालीजन बराबर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे।



जनपद सिद्धार्थनगर के महत्वपूर्ण नम्बर

जिलाधिकारी	मो:0:- 9454417530
मुख्य विकास अधिकारी	मो:0:- 9454464749
एस डीएम नौगढ़	मो:0:- 9454415936
एस डीएम बांसी	मो:0:- 9454415937
एस डीएम डुमरियागंज	मो:0:- 9454415939
एस डीएम इटवा	मो:0:- 9454415939
एस डीएम शोहरतगढ़	मो:0:- 9454415940
पुलिस अधीक्षक	मो:0:- 9454400305
थाना मोहाना	मो:0:- 9454404239
थाना जोगिया उदयपुर	मो:0:- 9454404235
थाना गोलौरा	मो:0:- 9454404233
थाना पथरा बाजार	मो:0:- 9454404240
थाना त्रिलोकपुर	मो:0:- 9454404243
थाना उसका बाजार	मो:0:- 9454404244

राष्ट्रीय दैनिक बुद्ध का संदेश

थाना शोहरतगढ़	मो:0:- 9454404241
थाना खेसरहा	मो:0:- 9454404236
थाना इटवा	मो:0:- 9454404234
थाना चिल्हिया	मो:0:- 9454404229
थाना डेवरुआ	मो:0:- 9454404230
थाना भवानीगंज	मो:0:- 9454404228
थाना मिश्रौलिया	मो:0:- 9454404238
थाना सि0नगर	मो:0:- 9454404242
थाना डुमरियागंज	मो:0:- 9454404232
थाना लोटन	मो:0:- 9454404237
महिला थाना	मो:0:- 9454404891

दुर्गापूजा के दृष्टिगत घाटों व प्रतिमा विसर्जन मार्ग स्थलों का किया निरीक्षण

दैनिक बुद्ध का संदेश बाराबंकी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार व पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स द्वारा शारदीय नवरात्रि व दुर्गापूजा के दृष्टिगत 28 सितम्बर को जनपद के थाना फतेहपुर व मोहम्मदपुर खाला क्षेत्रान्तर्गत पक्का घाट व बघौली घाटों व प्रतिमा विसर्जन मार्ग, स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान घाटों, प्रतिमा विसर्जन स्थल पर साफ-सफाई एवं लाइट की सुचारु रूप से व्यवस्था करने के साथ-साथ प्रतिमा विसर्जन स्थल पर गोताखोरों एवं जल पुलिससिपीएसी बलद्वारा सर्तक दृष्टि रखी जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त मूर्ति विसर्जन स्थल पर यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु यातायात पुलिस एवं स्थानीय पुलिस को हिदायत दी गई। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी फतेहपुर, क्षेत्राधिकारी फतेहपुर तथा पुलिस व प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारीगण मौजूद रहे।

व्यापार संगठन ने नगरपालिका रावर्टसगंज में दिया ज्ञापन

दैनिक बुद्ध का संदेश सोनभद्र। रावर्टसगंज नगर के मध्य रामलीला मैदान से अभी तक ऑटो का संचालन होता था लेकिन भिड़ की बात कह कर वर्तमान समय में ऑटो स्टैंड को नगर के मध्य से हटाकर बाहर कर दिया गया है जिससे ग्राहकों को सामान आदि लेने व लेकर दूर जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनके जेब पर भी बोझ बढ़ गया है जिससे ग्राहक बाजार से सामान खरीदना लगभग कम कर दिए हैं और इसके कारण व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है और केवल व्यापारी ही नहीं छात्र-छात्राएँ व आमजन भी ऑटो स्टैंड बाजार के बाहर करने से परेशान हैं क्योंकि जब ऑटो स्टैंड रामलीला मैदान से संचालित होता था तो सभी आसानी से सफर कर पाते थे लेकिन अब काफी दिक्कत हो गई है जबकि ऑटो स्टैंड जब रामलीला मैदान से संचालित हो रहा था तो उसके कारण किसी भी प्रकार की समस्या आवागमन में नहीं होती थी। इसलिए पुनः ऑटो स्टैंड को नगर के मध्य रामलीला मैदान से संचालित करने की बात को लेकर व्यापारी संगठन ने नगर पालिका रावर्टसगंज चेयरमैन व अधिशासी अधिाकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मुख्य रूप से नंदलाल कुशवाहा नगर महामंत्री, श्याम केशरी किराना नगर अध्यक्ष, संदीप सिंह चंदेल जिला उपाध्यक्ष, रमेश जायसवाल युवा नगर अध्यक्ष, अजीत जायसवाल जिला संगठन मंत्री, प्रकाश केशरी, अजय केशरी, आनंद जायसवाल नगर अध्यक्ष, अंशु अग्रहरी, दिनेश गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।



माता रानी के दरबार में हुआ भव्य जागरण का आयोजन

दैनिक बुद्ध का संदेश मसौली/बाराबंकी। रात भर जगत जननि के दरबार में चला जागरण, प्रस्तुत की गयी मनमोहक झाकिया और खेला गया नाटक, दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सादामऊ में माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गयी है। माँ भगवती का पूजन अचरन पूरे नौ दिनों तक चलेगा। इसी क्रम में शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों द्वारा भव्य जागरण का आयोजन कराया गया। जिसमें गांव के ही बच्चों ने मनमोहक झाकियां प्रस्तुत की जिससे दर्शक भक्ति के रंग में रंगे नजर आये। वही ग्रामीण कलाकारों द्वारा नोटकी का प्रोग्राम भी किया गया जिसमें गंगा की सौंघंध उर्फ डाकू मलखान सिंह नाटक खेला गया। नाटक हास्य, व्यंग्य, करुणा और वीर रस से भरा हुआ था। जिसमें कहीं कहीं पर दर्शकों का हँसते-हँसते पेट फूल गया तो कहीं पर दर्शकों की आँखों में आँशु भी आ गये। वही इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।



बुद्ध का संदेश
(हिन्दी दैनिक समाचार पत्र)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती पुष्पा शर्मा द्वारा बुद्धा प्रिन्टर्स, ज्योति नगर मधुकरपुर, निकट-हीरो होण्डा एजेन्सी, जनपद-सिद्धार्थनगर (30प्र0) 272207 से मुद्रित एवं प्रकाशित।
आर.एन.आई. नं.-UPHIN/2012/49458

संस्थापक स्व. के.सी. शर्मा सम्पादक राजेश कुमार शर्मा

9415163471, 9453824459

दैनिक बुद्ध का संदेश
9795951917, 9415163471
@budhakaasandesh
budhakaasandeshnews@gmail.com
www.budhakaasandesh.com

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट. के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद जनपद-सिद्धार्थनगर न्यायालय के अधीन ही मान्य होगा।

